



अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज सोमवार, 31 अगस्त, 2020 विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मियों की छंटनी करेगा केंद्र

सर्विस रिकार्ड की समीक्षा करने का आदेश

नई दिल्ली, प्रेटर। कार्मिक मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी विभागों को तीस साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड की समीक्षा करने को कहा है। इसके बाद इनमें से अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों को पहचान करके उन्हें स्थाई रूप से रिटायर करने को कहा गया है। केंद्र सरकार यह फैसला जनहित में लेना चाहती है। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक केंद्र



सरकार के कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा सेंट्रल सिविल सर्विस

(पेंशन) रूल्स, 1972 के मूलभूत (आइ) और 48 (आइ) (बी) के नियम (एफआर) 56 (जे) व 56

एक सरकारी नौकर को पूरी तरह से रिटायर करने का अधिकार मिलता है।

शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी अफसर की आयु 50/55 वर्ष होने या उनके सेवाकाल के कम से कम तीस साल पूरे होने के बाद उन्हें किसी भी समय सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यह कदम उनके कामकाज और आचरण के आधार पर जनहित में उठाया जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को अक्षमता के आधार पर सामान्य रूप से रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न विभागों को समय-समय पर ऐसे

कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा करने को कहा जाता है और यह बताने को कहा जाता है कि वह सेवा में कायम रखने के योग्य हैं या नहीं। सरकार का मानना है कि जिन कर्मचारियों का कामकाज या आचरण भ्रष्ट है, उन्हें रिटायर कर दिया जाना चाहिए। यह साफ है कि इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी के समय से पहले रिटायर किया जाना कोई पेनाल्टी नहीं है। यह अनिवार्य रिटायरमेंट से अलग है। अनिवार्य रिटायरमेंट सेंट्रल सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, 1965 के तहत पेनाल्टी है।

सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया मोड़, रिया को ड्रग चैट को लेकर गोवा के होटल व्यवसायी से होगी पूछताछ

पणजी, एएनआइ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से सीबीआइ पूछताछ कर रही है। इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय (एन) ने ड्रग चैट को लेकर गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या को तलब किया है। सुशांत मामले में उनका नाम आने पर गौरव आर्या ने कहा कि वे सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से 2017 में मिल चुके हैं। गौरव आर्या उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट की है। इस चैट में ड्रग्स पदार्थों से संबंधित बातें की गई थीं। साल 2017 में हुई चैट में रिया और गौरव के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत रिकवर्ड की गई। गोवा के अंजुना बीच में स्थित द इमली होटल के मालिक गौरव आर्या को 31 अगस्त से पहले प्रवर्तन निदेशालय (एन) के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि कल ईडी आर्या से पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को गौरव आर्या के होटल में नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें 31 अगस्त से पहले एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ईडी के अधिकारियों ने होटल के गेट पर नोटिस चस्पा करने के बाद गौरव आर्या से मुलाकात नहीं की थी। उधर आज सीबीआइ रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की है। रिया के साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती सुबह साढ़े दस बजे डीआरडीओ गेट हाउस पहुंचे। अब तक रिया से इस मामले में सीबीआइ कुल 17 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के जवाबों से सीबीआइ संतुष्ट नहीं है। जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से भी पूछताछ की है।

तमिलनाडु में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

लेकिन खोले गए पूजा स्थल, CM ने किया एलान

चेन्नई, एजेंसियां। देश में कारोबार को धरती पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसी बीच रविवार को तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। लोगों को पूर्व में लगी पाबंदियों से थोड़ी छूट दी गई है। एक सितंबर से लोग बिना ई-पास के राज्य में कहीं भी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने लोगों को पूर्व में लगी पाबंदियों से थोड़ी छूट दी है। एक सितंबर से लोग बिना ई-पास के राज्य में कहीं भी यात्रा कर सकेंगे। यही नहीं, पूजा स्थल और मॉल भी खुल जाएंगे। यही नहीं सितंबर में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन भी नहीं रहेगा। होटलों और रिजॉर्ट को खोलने को भी मंजूरी दी गई है। यह जानकारी राज्य सरकार ने रविवार को दी। स्कूल-कॉलेजों और कंटेनमेंट जोन पर पूर्व की भांति पाबंदियां लागू रहेंगी। अंतर राज्यीय रेल सेवाओं को केवल चुनिंदा मार्गों पर ही चलने की अनुमति होगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-चार के दिशा-निर्देशों में साफ कर दिया था कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। केंद्र की ओर से साफ कहा गया था कि कुछ गिनी-चुनी गतिविधियों को



छोड़कर अन्य सभी को अनुमति मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्यों के भीतर या बाहर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, न ही राज्य इसके लिए अलग से कोई पास जारी कर सकेंगे।

देश में रविवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 78,761 नए मामले सामने आए इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 35 लाख को पार कर गई है। हफ्ते भर पहले ही संक्रमितों की संख्या 30 लाख से अधिक हुई थी। देश में कोरोना के 27,13,933 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35,42,733 हो गई। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 948 लोगों की मौत हुई है।

देश में महामारी से अब तक 63,498 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, शनिवार को 10,55,027 नमूनों की जांच की गई। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में 87, आंध्र प्रदेश में 82, उत्तर प्रदेश में 62, पश्चिम बंगाल में 53, पंजाब में 41, मध्य प्रदेश में 22, झारखंड में 16, दिल्ली में 15, ओडिशा में 14, गुजरात और राजस्थान में 13-13 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई।

पीएम मोदी ने इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

मोहर्रम के 10वें दिन को आशुरा का दिन कहा जाता है। इसी दिन इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे



मोहर्रम के 10वें दिन को आशुरा का दिन कहा जाता है। इसी दिन इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। अपने दबीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, 'हम इमाम हुसैन (एएस) के बलिदान को याद करते हैं। उनके लिए सच्चाई और न्याय के मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था।

पीएम मोदी ने किया अन्नदाताओं को नमन, बताया कोरोना काल में किसानों ने मेहनत से जीती जंग

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के अन्नदाताओं को नमन किया। पीएम मोदी ने आज देश के किसानों को नमन किया। कोरोना संकट काल में किसानों के अथक परिश्रम और उसके फल को लेकर पीएम मोदी ने आज मन की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों ने कोरोना जैसी संकट घड़ी में खुद को साबित किया है। उन्होंने ऋग्वेद के एक मंत्र का उल्लेख करते हुए किसानों के सम्मान में कई बातें कहीं। पीएम मोदी ने कहा, ऋग्वेद में मंत्र है- अन्नानां पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात् अन्नदाता को नमन है। किसान को नमन है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना जैसे कठिन समय में



अपनी ताकत को साबित किया है। उन्होंने जानकारी दी कि देश के किसानों की मेहनत की बदौलत हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। घान इस बार 10%, दालें 5%, मोटे अनाज लगभग 3%, ऑयलसीड लगभग 13%, कपास लगभग 3% बोंए गए हैं। इसके लिए मैं देश के किसानों को बधाई देता हूँ।


प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, प्रेटर। सुप्रीम कोर्ट अवमानना के दो मामलों में वकील प्रशांत भूषण को आज सजा सुनाएगा। न्यायपालिका के खिलाफ दो आपत्तिजनक टवीट करने के मामले में कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ उनको सजा सुनाएगी। अदालत की अवमानना कानून के तहत उन्हें छह महीने की सामान्य कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए समय दिया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर

दिया था। इसके बाद 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने पीठ से भूषण को सजा नहीं देने का आग्रह किया था। पिछली सुनवाई पर जस्टिस मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भूषण से कहा था कि आखिर वो क्यों माफी नहीं मांग सकते। माफी शब्द बोलने में उन्हें दिक्कत क्या है। जस्टिस मिश्र दो सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अर्चना जनरल केके वेणुगोपाल ने भी अदालत से भूषण को आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी देते हुए माफ करने का आग्रह किया था। तब पीठ ने भूषण को अपना बयान वापस लेने



पर विचार करने के लिए आधे घंटे का वक्त भी दिया था। वेणुगोपाल ने भी भूषण से अपने सभी बयान वापस लेने और खेद जताने को कहा था। लेकिन भूषण



ने ऐसा करने से मना कर दिया था। वेणुगोपाल के आग्रह पर पीठ ने कहा था कि गलतियां सभी से होती हैं, उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन भूषण तो अपनी

गलती मानने को तैयार नहीं हैं। भूषण ने 29 जून को एक टवीट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे को एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह एक महंगी बाइक पर बैठे थे। उन्होंने तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। उसके बाद दूसरे टवीट में उन्होंने देश के हालात को लेकर पिछले चार प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। भूषण के खिलाफ अवमानना का एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पहला टवीट: 27 जून- जब इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र खत्म किया गया। इसमें वे (इतिहासकार) सुप्रीम कोर्ट खासकर 4 पूर्व सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। दूसरा टवीट: 29 जून- इसमें वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की हाइलैंड डेविडसन बाइक के साथ फोटो शेयर की। सीजेआई बोबडे की अलोचना करते हुए लिखा कि उन्होंने कोरोना दौर में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। प्रशांत भूषण को नवंबर 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस दिया था। तब उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर टिप्पणी की थी।

पीएम मोदी ने कुत्तों की बहादुरी को किया याद

देशवासियों से घर में देसी नस्लें लाने का किया आग्रह



सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की इच्छा रखते हुए अपने कर्तव्यों के साथ कई ऐसे बहादुर कुत्ते हैं जिन्होंने देश के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने मासिक मन की बात के

दौरान इनका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 2006 में, बलराम नामक एक कुत्ते ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग में बड़ी मात्रा में विस्फोटकों का पता लगाया। 2002 में, भवना नामक एक कुत्ते ने एक बखरू का पता लगाया। बखरूको फेलाने के दौरान, आतंकवादियों ने विस्फोट किया और दोनों तीन-साल पहले शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, सीआरपीएफ का रिस्फर डॉग 'क्रैकर' भी बखरू ब्लास्ट में शहीद हो गया। हाल ही में, बीड पुलिस ने अपने कुत्ते 'पंकी' के लिए एक आंसू निकालने वाला एड किया, जिसने पुलिस के लिए 300 से अधिक मामलों को सुलझाने में मदद की थी। 17 अप्रैल, 2017 को

सीआरपीएफ कैनाइन सैनिक क्रैकर (बेसिनियम शेफर्ड मालानियोस, डीओबी 04.10.2014) के साथ ई / 170 बीएन की टुकड़ी मोदकपाल वन क्षेत्र, बीजापुर, छत्तीसगढ़ में एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर थी। यह सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था और एक कूचा ट्रेक पर लगाए गए संदिग्ध आईईडी के लिए सैनिकों को सतर्क किया। दुर्भाग्य से, आईईडी विस्फोट हो गया और क्रैकर ने सैनिकों को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) वाईएस अविनाश को माल्टी चोटें आईं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कुत्ते आपदा प्रबंधन और बचाव मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मई, 2017 के अवमानना के मामले में दोषी करार दिए जाने के फैसले की समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। माल्या ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपने बच्चों के खाते में 40 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर की थी। जस्टिस यूए ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ इस मामले में अपना फैसला 31 अगस्त को सुनाएगी। उसने विगत 27 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्रिटेन भाग चुके माल्या पर भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने का मामला है। इसमें उनकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के विगत 9 मई, 2017 के आदेश के खिलाफ विजय माल्या ने यह समीक्षा याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआइ के नेतृत्व में बैंकों को एक समूह की याचिका पर 40 करोड़ डॉलर माल्या के बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मामले में दोषी पाया था।

देश में भयावह होती जा रही कोरोना वायरस संक्रमण की तस्वीर, एक दिन के नए मामलों में टूटा रिकॉर्ड

नई दिल्ली, ब्यूरो। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तस्वीर भयावह होती जा रही है। रविवार को रिकॉर्ड 80 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 36 लाख को पार कर गई है। एक दिन पहले ही 78,761 नए केस मिले थे, जो दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में अब तक सामने आए नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या थी। अमेरिका में 16 जुलाई को सबसे अधिक 77,299 नए केस सामने आए थे। देश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या भी 64 हजार से अधिक हो गई है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 27 लाख से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं।



राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से समाचार एजेंसियों और अन्य श्रोतों से रात नौ बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक शनिवार देर रात से अब तक 80,078 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख 12 हजार 164 पर पहुंच गया है। एक दिन पहले ही यह आंकड़ा 35 लाख को पार किया था। इस दौरान 59,403 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भी 27 लाख 65 हजार 540 हो गई है। सक्रिय मामले साथ लाख 82 हजार 88 रह गए हैं। अब तक 64,536 लोगों की इस महामारी ने जान भी ले

ली है। रविवार को ही 958 लोगों की जान गई, जिसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 296, कर्नाटक में 106, आंध्र प्रदेश में 88, उत्तर प्रदेश में 67, पंजाब में 56, मध्य प्रदेश में 29, दिल्ली में 22, गुजरात में 17, हरियाणा व ओडिशा में 12-12 और तेलंगाना में 10 मौतें शामिल हैं, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 35 लाख 42 हजार 733 हो गई है और अब तक 63,498 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि, 27 लाख 13 हजार 933 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 16 हजार से अधिक नए मामले सामने आए। 16,408 नए केस के साथ राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा साथ लाख 80 हजार 689 पर पहुंच गया है। अब तक 24,399 लोगों की जान भी जा चुकी है। निकटवर्ती गोवा में 451 नए मामले मिले हैं और कुल मरीज 17 हजार से अधिक हो गए हैं। ओडिशा में 3,014 नए केस सामने आए हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा एक लाख को पार कर गया है। आंध्र प्रदेश में लगातार पांचवें दिन 10 हजार से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या चार लाख 24 हजार 767 हो गई है। कुल मामलों के मामले में आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु में कुल मरीजों की संख्या चार लाख 22 हजार से कुछ अधिक है। आबादी के मामले में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 6,233 नए मामले मिले हैं। तीन दिन पहले 58 सौ से अधिक नए मामले मिले थे। राज्य में मरीजों की संख्या दो लाख 25 हजार को पार कर गई है। अब तक 3,423 मरीजों की जान भी जा चुकी है।



ग्रामीण अंचल

संक्षेप समाचार

विद्यालयों की मनमानी का विरोध करेगा एबीवीपी

फूलपुर। एबीवीपी ने फूलपुर नगर इकाई का विस्तार करने एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से रविवार को फूलपुर स्थित कस्बे के शिवाला मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया। फूलपुर इकाई के अध्यक्ष किशन साहू ने इकाई का विस्तार करते हुए अन्य पदाधिकारियों की सहमति से नगर सह मंत्री के लिए रवि पाण्डेय, विमलेश मोहनवाल व सोशल मीडिया संयोजक के लिए योगेश चक्रवर्ती का चयन किया। वहीं नगर कार्यकारी सदस्य के लिए अंकित मौर्य के नाम की घोषणा की गई। नगर मंत्री उमेश प्रजापति ने कहा कि नवीन इकाई आगामी सत्र में नई ऊर्जा के साथ संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। विभाग संयोजक राजकुमार करण ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में अपर विद्यालयों में फीस बढ़ती की गई तो एबीवीपी का हर कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करेगा।

नहीं निकला मोहरम का जुलूस, न ही रखा गया ताजिया

मऊआइमा। मऊआइमा में महामारी के कारण इस वर्ष मोहरम का जुलूस नहीं निकला न ही ताजिया ही रखा गया। अलबत्ता लोग घरों में रह कर रोजा रखें। पूरे विश्व में कोरोना महा मारी फैला हुआ है। इसी दरम्यान त्योहार भी आ गए हैं। इस बार मोहरम पर कर्बला से न ही मिट्टी ली गयी न ही ताजिया ही ताजिया स्थलों पर रखा गया। अकीदतमदों ने ताजिया स्थलों पर हरे झंडे गाड़ कर अग्रबत्ती और लोहबान आदि जला कर हसन हुसैन को याद करके रोए। न ही ढोल पीटा गया न ही नोहा खानी की

गयी। बता दें और मऊआइमा कस्बा के मोहल्ला हजियाना, अबूहलीम पट्टी, पूरे मियां जी, कजियाना कलां सदरबाजार आदि मोहल्लों से मोहरम का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकलता था। इस बार लोग ताजिया स्थलों कर्बला पर अग्र बत्ती लोहबान आदि जलाए तथा घरों में रह कर रोजे रखे। मोहरम मऊआइमा कस्बा के अलावा मरखाआऊ, जांम्हा, तेजपुर, सराय ख्वाजा, भीम्हा, बांका जलानपुर, गंसियारी, सुलतानपुर खास आदि गांवों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। परन्तु इस बार काफी मायूसी छाई हुई थी।



सैदाबाद में नहीं उठा ताजिया, 140 साल की टूटी परंपरा

सैदाबाद। कोरोना के चलते हर त्योहार पर किसी भी जुलूस व भीड़ इकट्ठी होने की मनाही है। सैदाबाद में बीते 140 वर्षों से ताजिया निकाला जा रहा है। लेकिन इस वर्ष यह परंपरा टूट गई। जिसको लेकर लोगों में निराशा है।

सैदाबाद में मुहरम के मौके पर हर साल ताजिया निकाला जाता था। कोरोना के चलते सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इस साल ताजिया नहीं निकाला गया। लोगों ने घर में ही रहकर त्योहार मनाया व मुल्क की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। ताजियादार मुखार खान ने बताया कि लोगो में मायूसी है। लेकिन सरकार द्वारा जो भी नियम बनाये गये है वह लोगो की भलाई के लिए है। आशा है कि यह बीमारी जल्द खत्म होगी। सारा देश हर त्योहार खुशी से मनायेगा।



इलाज के दौरान मरी महिला की तीन लाख कीमत दे कार्रवाई से बचा अस्पताल संचालक



हंगामे बाद सूचना पर पहुंची पुलिस पूछताछ करते हुए

घूरपुर। घूरपुर के गौहनिया क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगा हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। मामला गरमाता देख अस्पताल के संचालक के भी पसीना छूट गए। घंटों हंगामा के बाद जान की कीमत देकर मामला को सलटाया तब जाकर मामला शांत हुआ। और परिजन शव लेकर घर गए। घूरपुर के गौहनिया क्षेत्र के एक गांव की महिला अपने बीमारी थी दो दिन पूर्व वह इलाज कराने गौहनिया की एक प्राइवेट अस्पताल में गई तो वहां भर्ती कर लिया गया। शनिवार के दिन

महिला के बच्चेदानी की आपरेशन की गई। तो उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और रात में अस्पताल में मौत हो गई। मौत हो जाते देख अस्पताल संचालक के हाथ पांव फूल गए। और परिजनों को बताया की हालत खराब है उसे शहर ले जाना पड़ेगा। आरोप है कि अस्पताल के संचालक मरने के बाद अस्पताल के संचालक स्वयं के एंबुलेंस से शहर ले कर चल दिए और थोड़ी ही दूर जाने के बाद मौत हो जाने की बहाना बताते परिजनों को शव ले जाने की बात करने लगे। रात भर महिला की शव अस्पताल में ही रहा। रविवार की सुबह परिजन सहित सैकड़ों लोग पहुंच

लापरवाही से मौत का आरोप लगा अस्पताल को घेर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर पुलिस फोर्स भी पहुंच आक्रोशितों की समझाने बुझाने लगी। दबाव बढ़ता देख अस्पताल संचालकों ने रुपये देकर मामला को सलटाने में लग गए और परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। घंटों बाद आखिरकार मरी महिला की तीन लाख कीमत देकर अस्पताल संचालक कार्रवाई से बच निकला। उक्त संबंध में एसओ घूरपुर भुवनेश कुमार चौबे ने बताया कि इलाज के दौरान मौत होने की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। बाद में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था।

जर्जर हो चुका है करछना-जारी मार्ग

करछना। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व बनी करछना-जारी मार्ग की स्थिति जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह गड्ढे होने और बरसात के दिनों में जलजमाव होने के कारण राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण में व्यपक भ्रष्टाचार तथा जिम्मेदारों की हीलाहवाली के कारण डेढ़ वर्ष पूर्व बनी सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगो का कहना है कि उक्त मार्ग काफी वर्षों से खस्ताहाल थी जिसका मरम्मतिकरण व डामरीकरण का कार्य कराया गया था जिससे आस जगी थी कि अब आवागमन सुचारु रूप से चलेगा लेकिन इतनी जल्दी सड़क खराब हो जाने के कारण लोगो में ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है।

वाहनों के डीजल चोरी करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे

घूरपुर। जनपद के थानों में सीज ट्रकों व हाइवे पर खड़े वाहनों के तेल टंकी से डीजल पार करने वाले गैंग के कई शातिर घूरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस पकड़े गए शातिरों से गैंग में शामिल अन्य लोगों की पूछताछ कर उनको भी पकड़ने में जुटी है। घूरपुर पुलिस ने शनिवार की रात ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग के कई सदस्यों को धर पकड़ के लिए पुलिस डीजल चोरी गैंग के सदस्य

यमुनापार व गंगापार के थानों में पुलिस द्वारा सीज ट्रकों से बड़ी सफाई के साथ डीजल पार कर लिया करते थे। यहां तक बताया गया कि हाइवे के ढाबों के किनारे खड़े ट्रकों व नो इंटी के स्थानों पर कतार में खड़े ट्रकों के टंकीयों में भरे तेल को भी बड़ी सफाई से पार कर दिया करते थे। पकड़े गए शातिरों से पुलिस को गैंग में शामिल अन्य कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इनकी धर पकड़ के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। सभी पकड़े

ए तो एक लंबी गैंग का खुलासा पुलिस कर सकती है। बताया जाता है कि पकड़े गए शातिर अधिकतर अप्ने चालकों से साटगांठ कर कम दामों में बेच देते थे। एक अप्ने सहित खरीदार चालक भी पुलिस के हाथ लगा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर शातिरों के गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में जुटी है। पकड़े गए आरोपितों में कुछ गंगापार के है तो कुछ यमुनापार के स्थानीय थाना क्षेत्र के भी।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष का निधन



रोते बिलखते परिजन व जुटी महिलाएं

खीरी। तहसील अंतर्गत आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष ईश्वर चंद्र मिश्र का आकस्मिक निधन हो गया। जहां पर परिजनों में दुःख का माहौल व्याप्त है। जानकारी के अनुसार रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान निधन हो गया। ईश्वर चंद्र मिश्र विगत 10 वर्षों से लगातार ग्रूप कोरा व तहसील अध्यक्ष थे। जो एक बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज के व्यक्ति थे। उनके अंदर एक विशेषता थी कोई भी व्यक्ति चाहे वह परिचित हो या अपरिचित कोई भी घूरपुर भुवनेश कुमार चौबे ने बताया कि इलाज के दौरान मौत होने की शिकायत पर पुलिस पहुंची थी। बाद में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था।

एक अपूर्णीय क्षति हुई है। जिसकी भरपाई होना आने वाले समय में मुश्किल है। जैसे ही इसकी जानकारी पत्रकारों को हुई खीरी, लॉडियारी बड़ीखर और कोरांव के पत्रकार सभी लोग मौके पर पहुंचकर शव यात्रा में शामिल हुए। भारतीय पत्रकार संघ के यमुनापार प्रभारी लवकुश द्विवेदी, संघ के प्रदेश महासचिव वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण केसरवानी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य सुशील केसरवानी, खीरी से अनुज कुमार, जिला मीडिया प्रभारी जाप, वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र कुमार शुक्ला, साहब लाल कुशवाहा, कृष्णा केसरवानी, विनय गुप्ता, ओम प्रकाश, सत्यम शुक्ला आदि दर्जनों की संख्या में पत्रकार एवम ग्रामीण उपस्थित होकर शोक संवेदना व्यक्त किया।

दो पक्षों में जमकर मारपीट चले लाठी डंडे ईट पत्थर में 6 घायल

हनुमानगंज। सराय इनायत थाना क्षेत्र के कोटवाँ गांव नि, मौजीलाल सोनकर व मंजू देवी पत्नी विष्णु सोनकर के बीच जमीनी विवाद को लेकर रविवार सुबह करीब 10, बजे दोनों पक्षों में कहासुनी गालीगुप्ता होने लगा देखते ही देखते मंजू देवी के पक्ष के लोग लाठी डंडे ईट पत्थर से लैस होकर धावा बोल दिया जिसमें एक पक्ष के मौजीलाल सोनकर, पत्नी ननकी देवी माँ अनीता देवी, अनूप, शेर, दिनेश, घायल हो गए। दूसरे पक्ष से भी दो लोगों को हल्की चोट आई है। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए पीएचसी अँसुँ भेजा। नंदलाल

सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने मंजू देवी, पत्नी विष्णु सोनकर महेन्द्र सोनकर दिनेश, सूरज, महेन्द्र, बिपिन सहित तीन अज्ञात के खिलाफ मारपीट बलवा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। ईम्पेक्टर संजय द्विवेदी ने बताया कि मंजू देवी एक जमीन को बैनामा कराया है जिसपर दूसरा पक्ष कब्जा है इसी बात को लेकर एक दिन पहले ही दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हुआ था जिसपर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला सांत करा दिया था। उसी बात को लेकर दोनों पक्ष आज सुबह फिर आमने सामने भिड़ गए।

प्राचीन सर्वेश्वर हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार का भूमिपूजन

शंकरगढ़। प्राचीन सर्वेश्वर हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार का भूमिपूजन रविवार को किया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नारीबारी में इस ऐतिहासिक मंदिर के मुख्य द्वार के भूमिपूजन के मुख्य यजमान ग्राम प्रधान नारीबारी संतोष कुमार शुक्ल व चौकी प्रभारी नारीबारी जगदीश कुमार रहे। आचार्य आद्या प्रसाद ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया, इसके उपरांत यजमान द्वय ने फावड़ा चलाकर आधारशिला रखी। मंदिर का मुख्य द्वार सार्वजनिक सहयोग से भव्य और दिव्य रूप से बनेगा। भूमि पूजन समारोह में प्रमुख रूप से धर्मदास जी महाराज, पुजारी रमेश दास, विजय शंकर शुक्ला, महेंद्र कुमार शुक्ला, शरद कुमार गुप्ता, सूर्य कान्त शुक्ला, आदि लोगों ने मौजूद रहकर विधि-विधान से पूजन अर्चन किया और हर-हर महादेव का उद्घोष किया।



प्राचीन सर्वेश्वर हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार का भूमिपूजन करते हुए

मोटर चालू करते समय करेंट से किसान की मौत

प्रयागराज। सोरांव थाना क्षेत्र के जमुई गांव में रविवार दोपहर मोटर चालू करते समय करेंट लगने से एक युवा किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। सोरांव के जमुई गांव निवासी ज्ञान चन्द्र पटेल (32) पुत्र स्वर्गीय जगरूप पटेल खेती करके तीन बेटियां और पत्नी का भरण-पोषण करता था। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर घर लगी मोटर चालू करने के लिए जैसे स्विच पर हाथ

लगाया तो करेंट की चपेट में आ गया। जब तक परिवार के लोग उसे बचाने के लिए कुछ कर पाते, इसी बीच उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक गंगा पार नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि करेंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विधि-विधान से पूजे गए गजानन

शंकरगढ़। कस्बे के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार गणेश उत्सव की धूम रही, लेकिन कोरोना के प्रभाव से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुए। गजानन भक्तों ने घरों पर या मंदिरों पर कुछ गिने-चुने लोगों के बीच पूजन अर्चन कर विघ्न-विनाशक गणेश भगवान की पूजा की। रविवार को हवन पूजन के साथ गणेश उत्सव का समापन किया गया। शंकरगढ़ कस्बे के साथ ऐतिहासिक सर्वेश्वर हनुमान मंदिर नारीबारी के प्रांगण में गणेश भगवान का पूजन हवन का आयोजन विधि मोदनवाल आदि सहयोगियों के द्वारा किया गया जिसमें आचार्य आद्या प्रसाद, धर्मदास महाराज, रमेश दास ने विधि विधान से मुख्य यजमान ऋषि मोदनवाल आदि के साथ पूजन हवन किया, जिसमें



हवन पूजन करते लोग

मुख्यतः शरद कुमार गुप्ता, प्रमोद सोनी, संदीप गौतम, प्रदीप पाण्डेय,

कान्हा चतुर्वेदी, मोनु केसरवानी, शरद कुमार गुप्ता, गिरीश कुमार चतुर्वेदी

आदि के साथ नगरवासी महिलाओं ने भी हवन पूजन किया।

अनलॉक में जिले से श्रमिकों का हुआ पलायन

प्रयागराज। लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक में काम की तलाश में श्रमिकों का प्रयागराज से व्यापक स्तर पर पलायन हुआ। शायद यही कारण है कि लॉकडाउन के तीन महीनों में जहां एक दिन में सर्वाधिक डेढ़ लाख श्रमिकों को रोजगार दिया गया था वो शनिवार को घटकर महज 33 हजार रह गया। लॉकडाउन के दौरान तमाम श्रमिक काम छोड़कर अपने घर आ गए थे। व्यापक पैमाने पर श्रमिकों को रोजगार दिया गया। इसमें पंचायत भवन, शौचालय बनाने, खेतों की मेड़ तैयार करने आदि तमाम काम दिए गए। लेकिन इन श्रमिकों को मनरेगा के तहत अधिकतम मजदूरी 201 रुपये दिन की मिलती थी। मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी पूरे परिवार के भरणपोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में श्रमिक उन



जिलों में लौटने को मजबूर हो रहे हैं जहां वे काम करते थे। अनलॉक के बाद जब उद्योग गति पकड़ने लगे तो पुरानी जगह से श्रमिकों को वापस काम पर बुलाया जाने लगा। ऐसे में श्रमिक वापस जाने लगे।

शायद यही कारण है कि मनरेगा में जो संख्या एक लाख 50 हजार पहुंच गई थी वो घटकर शनिवार को 33 हजार हो गई। हालांकि अधिकारी इसका दूसरा कारण यह भी मानते हैं कि मनरेगा के

ज्यादातर काम मिट्टी में होते हैं, जैसे तालाब खोदने, खेतों की मेड़ तैयार करने आदि। जो बारिश में बंद हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे श्रमिकों का काम इस वक्त बंद है। डीसी मनरेगा कपिल कुमार का कहना है

प्रयागराज हलचल

प्रयागराज सोमवार, 31 अगस्त, 2020

संक्षेप समाचार

डेंगू से घटती है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता

प्रयागराज। कोविड-19 के संक्रमण काल में डेंगू से भी बचने की आवश्यकता है। इसकी चपेट में आने से शरीर की इम्युनिटी कम हो जाती है जिससे कोरोना संक्रमित होने की आशंका ज्यादा हो जाती है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विमल कांत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की जनपद स्तरीय रेपिड रिस्पांस टीम द्वारा निगरानी की जा रही है। जन जागरूकता के अलावा बुखार पीड़ित मरीजों के रक्त नमूने लिए जा रहे हैं। साथ ही वीथीय पाउडर का छिड़काव और फागिंग का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डेंगू के लक्षणों में तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, प्लेटलेट्स कम होना, आंख के पीछे दर्द, तेज बुखार, नाक से खून बहना, जोड़ों में दर्द होना, उल्टी दस्त होना आदि हैं। लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बारिश के मौसम में डेंगू का प्रकोप ज्यादा होता है।

विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या

प्रयागराज। कीडगंज थाना क्षेत्र के बैरहाना मोहल्ले में शनिवार की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गाली को लेकर हुए विवाद के दौरान उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।


थरवई थाना क्षेत्र के इसराइलगंज उर्फनाहरपुर गांव निवासी सुरेश (30वर्ष) पुत्र नन्हे शहर के बैरहाना मोहल्ले के निवासी गामा सोनकर के घर किराए का कमरा लेकर अपने दोस्त के साथ रहता था। बताया जा रहा है शनिवार की रात सुरेश और टिंकू सोनकर के बीच गाली गुप्ता शुरू हो गया। गाली को लेकर विवाद शुरू हो गया और



टिंकू सोनकर ने सुरेश को तमचे से गोली मारकर फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर गृहस्वामी समेत अन्य लोग पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर वारदात की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दिया। सुरेश के परिवार के लोग पहुंचे और रविवार सुबह पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की। पुलिस

फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या

प्रयागराज। मुट्टीगंज थाना क्षेत्र में फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। शहर के मुट्टीगंज निवासी राजेश चैधरी (32) पुत्र स्वर्गीय शिव मोहन मजदूरी करके अपना खर्च चलाता था। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह कतिपय कारणों से क्षुब्ध होकर कमरे के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। पुलिस आत्महत्या की वजह घरेलू विवाद बता रही है।



हत्या मामले में एक संदिग्ध में लेकर पूछताछ कर रही है। युवक टिंकू सोनकर को हिरासत

पुलिस की पिटाई से घायल पटरी दुकानदार ने तोड़ा दम

प्रयागराज। दारागंज थाना निवासी नरोत्तम उर्फ पंचू पुत्र श्रीराम सब्जी का ठेला लगा कर अपना परिवार चलाते थे स्थानीय फुटपाथ दुकानदारों ने डरते हुये बताया कि तीन दिन पहले कच्ची सड़क पर पुलिस ने पंचू को लाठी डुबो तात घुसों से बुरी तरह पीटा जिससे नरोत्तम सड़क पर गिर गया मुंह से खून फेक दिया घर वालों को सूचना मिलने पर अस्पताल ले गये दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

नेशनल हाकर फेडरेश के प्रदेश सचिव रवि शंकर द्विवेदी को सूचना मिलते ही विमल गुप्ता के साथ मृतक के घर

पहुंचे परिवार में माँ बेहोश पड़ी थी विश्वास सूत्रों द्वारा बताया गया परिवार के उपर पुलिस का दबाव था अन्तिम संस्कार कराने का जल्दबाजी में दाहसंस्कार करा दिया गया स्थानीय लोगों ने बताया परिवार बहीत गरीब था, पुलिस आये दिन गरीबो का उन्पीड़न कर रही गाली देना लाठी मारना आम बात हो गई इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाये मृतक अपने पीछे छोटी बेटी व पत्नी छोड़ गया उसका गुजारा कैसे होगा।

डीएम ने पीपीई किट पहनकर कोरोना वाडों में जाकर मरीजों से ली जानकारी

प्रयागराज। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी रविवार को मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक कर कोविड-19 की समीक्षा की तथा कोरोना से हुई मृत्यु से सम्बंधित व्यक्तियों की रिपोर्ट भी ली। चिकित्सकों को मृत व्यक्तियों की केस स्टडी के आधार पर तथा उनसे अनुभव लेते हुए अस्पताल में भर्ती गम्भीर प्रकृति के मरीजों के इलाज में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। तत्पश्चात् पीपीई किट पहनकर कोरोना वाडों में जाकर मरीजों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा भर्ती मरीजों के बारे में कोई भी जानकारी यदि उनके परिजनों द्वारा मांगी जाये, तो उनको उनसे सम्बंधित भर्ती मरीज के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाये। कहा कि भर्ती मरीजों के परिजनों को उनके मरीजों की अद्यतन



कोरोना मरीजों से मिलने जाते जिलाधिकारी

स्वास्थ्य की सूचना दिए जाने हेतु अलग से कर्मचारी की तैनाती की जाये। जिससे परिजनों को किसी भी

तरह से जानकारी के बारे में कोई परेशानी न होने पाये। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायज एरिया में यदि सम्भव

हो तो कोविड-19 के संदिग्ध गम्भीर मरीजों व सामान्य मरीजों के लिए अलग-अलग वाडों की व्यवस्था कर



चिकित्सकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते जिलाधिकारी

ली जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड वाडों में ड्यूटीरत स्टाफ नर्सों को एक

निश्चित संख्या में बेड आवंटित कर दिए जाये, जिससे मरीजों का समुचित उपचार व उनकी जरूरतों को समय से

पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी ने कोविड आइसोस्यू वाड 7 व 8 में अलग-अलग एक-एक लैंडलाइन व

दो-दो मोबाइल फोन की व्यवस्था भी सुनिश्चित किये जाने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि फोन कॉल रिसीव करने हेतु दो-दो कर्मचारियों को अलग से तैनाती की जाये।

बैठक के बाद जिलाधिकारी स्वस्वरानी अस्पताल पहुंचकर पीपीई किट पहनकर कोविड वाडों एवं आइसोस्यू वाडों में जाकर एक-एक मरीजों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के चादरों को निरंतर बदलते रहने तथा वाडों को साफ-सफाई की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। कहा कि मरीजों को निर्धारित मानक के अनुसार समय से खाना एवं दवाईयां उपलब्ध होती रहे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। इस अवसर पर प्रचार्य डॉ. एस.पी सिंह, ड्यूट्यूअचो के सदस्य व अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

निष्क्रिय समितियों में खुलेगी इफको और पीसीएफ की फ्रेंचाइजी

प्रयागराज। किसानों को खाद की समस्या से अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनकी सुविधा के लिए इफको और पीसीएफ की फ्रेंचाइजी खोली जाएगी। यह फ्रेंचाइजी ब्लॉक स्तर पर खोली जाएगी। निष्क्रिय हो रही साधन सहकारी समितियों में फ्रेंचाइजी खोली जाएगी। जिले में पहले से निष्क्रिय 21 समितियों में फ्रेंचाइजी खोली जा चुकी है। 20 समितियां अब भी निष्क्रिय चल रही हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी खोलने की तैयारी है। सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता प्रमोद वीर आर्य ने बताया कि खाद के लिए किसानों की परेशानी दूर करने को कदम उठाया जा रहा है। पर्याप्त खाद आलू और गेहूँ की खेती के लिए रखने की तैयारी कर ली गई है। 22 से अधिक समितियों में फ्रेंचाइजी खोलने की तैयारी है।

आवश्यकता है

प्रतिभा उच्च शिक्षा संस्थान

653 फिरोजपुर उर्फ शेखपुर, फूलपुर टाउन, प्रयागराज। पिन-212402

स्नातक कला संकाय, प्राचार्य, प्रवक्ता विषय हेतु

विषय- प्राचीन भारतीय इतिहास-01

पद, अंग्रेजी साहित्य- 01 पद, गृह

विज्ञान- 01 पद, हिन्दी साहित्य- 01 पद,

राजनीति विज्ञान- 01 पद, संस्कृत-01 पद

एवं समाज शास्त्र- 01 पद।

योग्यता- नेट, पीएचडी, यूजीसी उ0प्र0

शासन द्वारा निर्धारित अर्हता के अन्वये

उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करें।

वेतनमान- उ0प्र0 शासन द्वारा जारी

शासनादेश के क्रम में वेतन देय होगा।

इच्छुक अर्हार्थी 15 दिनों के अन्दर

महाविद्यालय के उक्त पते पर आवेदन

प्रेषित करें।

सिद्धार्थ त्रिपाठी

प्रबंधक

मो: 8707046593, 9452145821

अखण्ड भारत संदेश के लिए स्वामी

श्री योगी सत्यम कियामेग आश्रम एवं

अनुसंधान संस्थान झून्सी, प्रयागराज

2110019 से प्रकाशित एवं प्रकाशित सम्पन्न

समाचारों से संबंधित विवादों का न्याय

क्षेत्र प्रयागराज होगा। आरएनआई नं:0-

UPHIN2001/9025

चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने पर तुला हुआ है स्वास्थ्य विभाग

प्रयागराज। एक तरफ जहां को रोग काल में डॉक्टरों के लाले पड़ गए हैं वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत एमडी एवं एमएस विशेष चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने में जुटा हुआ है। इसके लेकर चिकित्सकों में आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टरों की मांग है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरह उन्हें भी मेडिकल कॉलेज में रहने दिया जाए। आरोप है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग उन्हें जबरन कार्यमुक्त करने में तुला हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में कोरोना से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की आवश्यकता है। उक्त जानकारी देते हुए रेजिडेंट डाक्टर इमरान ने बताया कि 11 अगस्त को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने निर्देश दिया था कि किसी भी एमडी एवं एमएस वाले सभी चिकित्सकों को कोरोना काल को देखते हुए कार्यमुक्त न किया जाए। लेकिन 25 अगस्त को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिया कि सभी को कार्यमुक्त कर दिया जाय। जिसको आधार बनाकर मोतीलाल

नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एस.पी सिंह ने सभी को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। जबकि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऐसे चिकित्सकों को रोक लिया है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ एस.पी.सिंह कहना है कि सभी रेजिडेंट चिकित्सकों को नियम के तहत कार्यमुक्त किया जा रहा है। जबकि वह नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण करने के लिए यहाँ आए हुए थे। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका तो शासनादेश के साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जबरन दबाव बनाने के लिए ऐसा भ्रम फैला रहे हैं।

बड़े हनुमान मंदिर के दरबार तक पहुंची गंगा

प्रयागराज। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दो दिन से जलस्तर बढ़ने की रफतार थोड़ा धीमी है। रविवार को गंगा बंधवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर के दरबार तक पहुंच गई। इसके चलते बंधवा रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई। लोगों को आगे जाने से मना किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर नैनी, छतनाग में 16 और फाफामऊ में 10 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई।



उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इधर तीन दिन से बारिश कम हो रही है, जिसके कारण गंगा-यमुना में जलस्तर की रफतार काफी धीमी

हो गई। हालांकि कानपुर बैराज से छोड़ा गया तीन लाख क्यूसेक पानी अभी संगम नगरी तक नहीं पहुंचा है। सोमवार सुबह तक इसके प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। इसके बाद नदियों के बढ़ने की रफतार तेज हो सकती है। सिचाई विभाग बाढ़ प्रखंड के अधिशासी

अभियंता वृजेश कुमार का कहना है कि इस पानी से अधिक क्षेत्त नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात कम हो रही है। उधर, रविवार को बंधवा रोड के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, क्योंकि यहाँ बाढ़ देखने वालों की भीड़ पहुंच रही थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंधवा रोड, दारगंज ढाल, संगम पुलिस चौकी के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जो लोग बाढ़ देखने आ रहे हैं, उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने पर तटीय क्षेत्रों में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है।

संघ कार्यकर्ताओं ने किया आम-तुलसी का पूजन वंदन

प्रयागराज। नगर के जाजंटटाउन स्थित संघ कार्यालय में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का उद्घोषण करने के उपरान्त संघ कार्यकर्ताओं ने आम तथा तुलसी का पूजन-वंदन किया। इस दौरान सरसंघचालक के पाथेय को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। हिन्दू स्प्रिचुअल सर्विस फाउंडेशन द्वारा रविवार को पर्यावरण दिवस के हृत्प्रकृति वंदन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपना उद्घोषण किया। जिसमें उन्होंने कहा

कि प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है। मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन चल रहा है। जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। परस्पर अच्छे व्यवहार के कारण सृष्टि चलती है। लेकिन इस भटके हुए तरीके के प्रभाव में जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। हिन्दू स्प्रिचुअल सर्विस फाउंडेशन द्वारा रविवार को पर्यावरण दिवस के हृत्प्रकृति वंदन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपना उद्घोषण किया। जिसमें उन्होंने कहा



युवक का पूजन करते जिला प्रचारक

चले, ऐसा करना, ये जीवन का तरीका है। जिसे हम भूल गये हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नदियों, पेड़-पौधों, तुलसी, गाय, साँप, पर्वतों आदि की पूजा होती है। ये सभी प्रकृति के संरक्षक हैं। इस अवसर पर जिला प्रचारक प्रेमसागर ने कहा कि सरसंघचालक के उद्घोषण को सुनने के उपरान्त हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इसे अपने जीवन में उतारें। साथ ही अन्य जनों को प्रेरित करें। इस दौरान भाग कुटुम्ब प्रबोधन प्रमुख नरेन्द्र देव राय, जिला संगठन मंत्री रजनीश, विस्तारक विशाल,

पूर्व विधायक व बेटे पर भाजपा नेता ने दर्ज कराई एफआईआर

प्रयागराज। एक रघुनाथ मोहल्ले में रहने वाले भाजपा महामंत्री मयंक यादव की शिकायत पर सपा के एक पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ नैनी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा नेता मयंक यादव का आरोप है कि अरैल उपहार मौजे में उनकी माँ मीरा यादव के नाम से एक प्लाट है। जिस पर वह शनिवार को अपने पिता राजकुमार यादव के साथ निर्माण कार्य करा रहे थे। आरोप है कि निर्माणकार्य के दौरान वहां पूर्व सपा विधायक संईद अहमद का बेटा कबीर दर्जनों लोगों के साथ असलहों से लैस होकर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए काम बंद करा दिया। मयंक के अनुसार कबीर ने कहा कि अगर दोबारा काम लगाया तो पिता-पुत्र दोनों की हत्या कर दी जाएगी। मयंक के अनुसार दो दिन पूर्व भी सपा के पूर्व विधायक ने उन्हें धमकी दी थी। इसीकेर नैनी राजकिशोर ने बताया कि मयंक यादव को तहरीर पर पूर्व विधायक और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है।

धनन्जय, गोविन्द आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रयागराज सोमवार, 31 अगस्त, 2020

संक्षेप

डी यम ने किया निरीक्षण

कौशाम्बी। जिलाधिकारी कौशाम्बी ने जिला अस्पताल मंझनपुर में कोविड-19 हेतु बनाये गये एल-2 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करते हुये उटड डॉ0 पीएन चतुर्वेदी एवं उटर डॉ0 दीपक सेठ के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया भ्रमण

कौशाम्बी डीएम कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन सिंह द्वारा मोहरम के दौरान नगर पंचायत मंझनपुर एवं करारी का भ्रमण कर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं लोगों से कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपील की गयी

दो पक्ष में चले लाठी डण्डे

कौशांबी। मंझनपुर कोतवाली के रामपुर मड़ुकी गांव में आम रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे व लात घूसे चले हैं मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है मारपीट में चार लोग घायल हुए हैं पुलिस ने 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नही की है।

बनने के कुछ वर्षों में ही सड़के बन जाती हैं जलाशय

सड़क निर्माण में बढ़ते भ्रष्टाचार पर शासन की उदासीनता का खा미याजा भुगत रही जनता

कौशांबी। कहने के लिए तो यह जिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है लेकिन उन्हीं के विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर चरम पर व्याप्त है कि करोड़ों के बजट खर्च करने के बाद कार्य योजना का उपयोग आम जनता नहीं कर पाती है सड़क के बनने के कुछ दिन बाद ही खराब हो रही है इसके पीछे मुख्य कारण जो उभरकर आया है वह यह है कि लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न कार्य दायें संस्थाओं में जिले में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में तेजी से इजाफा हुआ है जिसके चलते टेकेदार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं और निर्माण के कुछ महीने बाद ही सड़के ध्वस्त हो जाती हैं। एक-दो बारिश में ही सड़क तालाब और जलाशय की शक्ल में बन जाती है सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है जिसके चलते सड़कों पर चलने



ये हाल है क्षतिग्रस्त सड़क का

वाले साइकिल और बाइक सवार गड्ढों का अंदाजा नहीं कर पाते और गड्ढे में गिर कर चोटिल हो रहे हैं। मंझनपुर मुख्यालय के पीछे नहर रोड की सड़क के गड्ढे पूरे विभाग के भ्रष्टाचार को खोलने के लिए पर्याप्त है इस सड़क पर पैदल निकलना पूरी तरह से मुश्किल हो गया है बाइक

और साइकिल से चलना भी जोखिम भरा है और सड़क पर जब चार पहिया लगजरी वाहन और ट्रक निकलते हैं तो उनके गति के चलते सड़क के गड्ढे के पानी के छींटे लोगों के घरों तक पहुँचते हैं जिसके चलते लोगों के घर गंदगी पहुँचती हैं। लेकिन सड़क पर हो रहे गड्ढे को

ठीक करने के मामले में जहाँ उदासीनता है वहीं घटिया निर्माण के जिम्मेदार पर शासन प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की है वहीं गड्ढे नुमा हो चुकी इस सड़क की मरम्मत की ओर भी अधिकारी और माननीयों ने भी पहल नहीं की है जिससे जनता परेशान है।

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष बने आशीष कुशवाहा

अझुवा कौशाम्बी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आने वाले चुनावों के लिए कमर कस ली है और संगठन की मजबूती के लिए नए चेहरों को तय करने की कवायद शुरु कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ,समाजवादी लोहिया वाहिनी,समाजवादी युवजन सभा के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर समाजवादी समर्थकों में उत्साह उत्पन कर दिया। उसी कड़ी में कड़ा धाम के रहने वाले युवा समाजवादी समर्पित कार्यकर्ता आशीष कुशवाहा को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष बनाया है इस खबर पर आशीष के निष्ठावान समर्थकों,शुभचिंतकों ने खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरी को बधाई दी पार्टी को धन्यवाद कहा।

सड़क पर गुजर कर देखी जा सकती है सड़क की दुर्दशा

96 लाख से गड्ढा युक्त सड़क का होगा पुनर्निर्माण, बिना चौड़ीकरण किये ही हो रहा निर्माण

अझुवा कौशाम्बी। नगर पंचायत का अति व्यस्त मार्ग जो सांखा धुमाई बरीपुर घाटा सहित सैकड़ों ग्राम सभाओं को जोड़ने वाला मार्ग है नगर पंचायत के सावरी माता तिराहे से अझुवा सांखा मार्ग के आबादी भाग तक सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क कहा नहीं जा सकता नगर पंचायत के अंदर कुछ स्थानों में यह सड़क इतनी संकरी है कि इस पर एक कार सवार और साइकिल सवार साथ में नही निकल सकते जिससे भीषण जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है जिसके चलते हमेशा विवाद होते रहते है इस पर गुजर कर ही इस सड़क की दुर्दशा को देखा जा सकता है।

समय समय पर सम्मानित अखबारों में भी सड़क की दुर्दशा की खबर चलाई गई आज भी यह सड़क अपनी दुर्दशा पर रो रही है। सड़क की दुर्दशा को संज्ञान लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल प्रसाद मौर्य ने जनवरी माह में



गड्ढायुक्त सड़क की दयनीय स्थिति।

प्रदेश के लोकनिर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर समाधान का प्रयास किया था जिस पर डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौका मुआयना कर पुनर्निर्माण करवाने का निर्देश दिया था। इसी बीच वैश्विक महामारी कोरोना ने

कौशाम्बी

मेहता विधाश्रम स्कूल में मेजर ध्यान चंद्र का बड़ी ही धूम धाम से मनाया गया जन्मदिन

भरवारी कौशाम्बी। भवन्स मेहता विधाश्रम स्कूल भरवारी में मेजर ध्यान चंद्र का जन्मदिन बड़ी ही धूम धाम से मनाया गया कॉलेज के प्राचार्य संजय श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया खेल अध्यापक सुधाकर सिंह ने उनके जीवन की घटनाओं पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत वर्ष मे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है कोविद 19 की वजह से हॉकों प्रतियोगिता न हो पाने की वजह से ऑनलाइन सामान्य ज्ञान निबंध फैंसी ड्रेस एवम योगासन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमे छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया उनके परिणाम इस प्रकार है। निबंध



भवन्स मेहता विधाश्रम स्कूल भरवारी में मेजर ध्यान चंद्र का जन्मदिन धूम धाम से मनाया गया।

प्रतियोगिता में कनिष्ठा सक्सेना प्रथम फैंसी ड्रेस में दिव्यअंश राज आया तो परवीन अर्पित सिंह

पाल क्रमश प्रथम दिवतीय तृतीय रहे। निर्णायक सुधाकर सिंह अवधेश मिश्रा रहे सामान्य ज्ञान

में सना खा प्रथम प्रजाल परमार द्वितीय आयुष सिंह एवम फैज क्रमश तृतीय रहे।

झोलाछाप डॉक्टर कब तक गरीबों की जेब में डालते रहेंगे डाका!

कौशाम्बी। इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों व फर्जी क्लीनिक संचालकों की बाढ़ का नजारा नजर आ रहा है जनपद के लगभग हर गली मोहल्लों में एक ना एक झोलाछाप डॉक्टर अपनी क्लीनिक की दुकानें खोलकर बैठे हैं जहाँ पर वह गरीब भोले भाले मरीजों को इलाज के नाम पर लूट कर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं ऐसे फर्जी चिकित्सकों के हौसले इस कदर बुलन्द हो गए हैं कि इन्हें जनपद के किसी भी संबंधित अधिकारियों का कोई भी खौफ नहीं है इस बात से कहीं ना कहीं यह भी उजागर हो रहा है कि संबंधित विभाग के जिम्मेदारों की मिलीभगत और कमीशन खोरी के चलते ऐसे झोलाछाप डॉक्टर खुले आम अपनी दुकान

चरवा चौराहे पर एक नहीं बल्कि कई चल रही हैं अवैध क्लीनिक

क्लीनिक वा नर्सिंहोम चला रहे हैं ऐसा ही एक झोलाछाप डॉक्टर चरवा चौराहे से मनीरी की ओर जाने वाली रोड पर अपनी क्लीनिक की दुकान खोलकर यहाँ के स्थानीय मरीजों को नीली पीली दवाइयां बेच रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोगों का कहना है कि डॉक्टर अपनी क्लीनिक में हर तरह के इलाज और ऑपरेशन करने का टेका ले लेता है गरीब अनपढ़ मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम भी वसूलते हैं क्लीनिक पूरी तरह से नर्सिंग एक्ट के मानकों के विपरीत संचालित हो रही हैं जो जनपद के स्वास्थ्य विभाग को

बड़ी चुनौती दे रही है और स्वास्थ्य विभाग को सदैव के घेरे में खड़ा कर रहा है आखिर किसकी शह पर ऐसे फर्जी झोलाछाप डॉक्टर हॉस्पिटल वा क्लीनिक संचालक खुलेआम स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन का हवाला देकर अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग का वह कौन कर्मचारी हैं जो ऐसे क्लीनिक संचालकों से बराबर कमीशन खोरी करता है और इनके गुनाहों पर पर्दा डालने का काम करता है यह विभाग के जिम्मेदारों द्वारा जांच का विषय है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कौशाम्बी व सी एम ओ कौशाम्बी का ध्यान आकर्षित कराकर ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों की व क्लीनिक संचालकों पर कार्यवाही करने की मांग कर रही है।

जिला अस्पताल के सामने सड़क की जमीन कब्जा करने की होड़

प्रशासन और कब्जा धारकों की लुकाछिपी के खेल में देखते देखते हो चुकी डेढ़ दर्जन से अधिक पक्की दुकाने निर्मित

नाली और पटरी पर अवैध कब्जा कर लिए जाने से जिला अस्पताल परिसर और गेट पर फैल रहा नाली का पानी जिससे व्याप्त है गंदगी

कौशाम्बी।सरकारी जमीनों में अवैध कब्जों के मामले को देखना है तो आपको कौशांबी जिले की व्यवस्था देखनी होगी इस जिले की सरकारी संपत्तियों में कब्जा करा कर राजस्व कर्मा मालामाल हुए हैं बार-बार शिकायतों के बाद भी सरकारी जमीनों के कब्जे को रोकने के प्रति आला अधिकारी भी गंभीर नहीं है लुकाछिपी के इस खेल में जिले की सरकारी संपत्तियों पर रोज कब्जे हो रहे हैं अकेले जिला अस्पताल के सामने सड़क की नाली और पटरियों पर देखते-देखते कुछ वर्षों में डेढ़ दर्जन से अधिक पक्की दुकानों का निर्माण



जिला अस्पताल जहां सड़क पर हो रहा अवैध कब्जा।

हो गया है खुलेआम सड़क की पटरियों पर अस्पताल बाउंड्री के बाहर निर्माण की बात अधिकारी भी देख रहे हैं लेकिन अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही नहीं शुरू हो सकी हैं। जिला अस्पताल के बाउंड्री के बाहर नाली और पटरी पर पक्की दुकानों का निर्माण कर लिए जाने से जिला अस्पताल का गंद पानी नाली से नहीं बह पाता जिसके चलते जिला अस्पताल का गंद पानी मुख्य गेट पर और

अस्पताल परिसर में फैल रहा है मुख्य गेट पर पानी भर जाने से बीमार और कमजोर मरीजों को अस्पताल आने में भी दिक्कतें होती हैं लेकिन इस समस्या के समाधान के प्रति जिम्मेदार उदासीन है गंदगी के चलते अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजन संक्रमण बीमारी के चपेट में आते हैं लेकर इस गंभीर समस्या है के समाधान के प्रति अधिकारी गंभीर नहीं है। डेढ़ दर्जन से अधिक

पक्की दुकानों के निर्माण के बाद दो दर्जन से अधिक दुकानें निर्माण कराने की फिराक में कब्जा धारक है कुछ जगहों पर छपर झोपड़ी डालकर और जमीन में मिट्टी डालकर अपना मालिकाना हक सरकारी जमीन पर कर दिया गया है और जैसे ही कुछ दिन की छुट्टी का मौका मिलेगा झोपड़पट्टी हटाकर पक्की दुकानें बना दी जाएंगी बीते दस दिन से जिला अस्पताल के बाहर पटरी पर नाली कब्जा कर आधा दर्जन दुकानें निर्मित हो रही है बार-बार लोगों ने जिम्मेदारों से शिकायत की लेकिन अवैध निर्माण को रोकने के प्रति जिला अस्पताल प्रशासन मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी नगर पालिका के अधिकारी तहसील और पुलिस के अधिकारी गंभीर नहीं है आखिर सड़क की पटरिया पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए छोड़ी जाती हैं फिर इस पर पक्के भवन कैसे बनते हैं इसका जवाब देह कौन है लेकिन पक्के भवन बनाने के बाद धराशही करने के प्रति किसी भी अधिकारी की ओर से कोई सार्थक कार्यवाही होती नहीं दिख रही है।

तालाब की भूमि पर बने मकान पर कब बुलडोजर चलवाएगा तहसील प्रशासन!

कौशाम्बी। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के पश्चिम शरीरा ग्राम पंचायत के रामाधीन के पुरवा में तालाब की भूमि नंबर 286 पर अवैध कब्जा कर घर बना लिया गया है इसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने तहसील में किया और गांव जाने वाले लेखपाल भी तालाब पर बने भवन को रोज देख रहे हैं लेकिन तालाब पर बने भवन को गिराए जाने की प्रक्रिया तहसील प्रशासन ने नहीं की है। इसी गांव में अशोक कुमार विश्वकर्मा भइयान पुत्र मुनालाल का गांव के छछोरिया तालाब में पक्का मकान बन गया है अशोक कुमार के कब्जे पर मंझनपुर उप जिलाधिकारी ने कार्यवाही करते हुए सरकार के कब्जे में जमीन ले

गांव जाने वाले लेखपाल भी तालाब पर बने भवन को रोज देख रहे हैं

ली थी । लेकिन उप जिला अधिकारी के कार्यवाही के बाद फिर अशोक कुमार ने सरकारी आदेशों की धंजियां उड़ाते हुए फिर से सरकारी तालाब पर कब्जा जमा लिया है इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है जिसके चलते इनके हौसले बुलंद है आखिर तालाब पर बने मकानों को बुलडोजर से गिराने वाले तहसील के अधिकारी इन दोनों मकानों को कब बुलडोजर लगाकर मकान गिराएंगे इस का इंतजार रामाधीन पुरवा गांव के ग्रामीण कर रहे है।

संक्षेप

चिकित्सक ने वकील से की अभद्रता

प्रतापगढ़। सीएचसी में इलाज कराने आए वकील ने एक डॉक्टर पर अभद्रता करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत एसडीएम से की गई है। कंधई थाना क्षेत्र के पूरे बाबू निवासी वरुण कुमार पांडे ने बताया कि वह पत्नी तहसील में वकालत करते हैं। शुक्रवार को तबीयत खराब होने के कारण वह सीएचसी पट्टी में इलाज कराने आए थे। उन्होंने पूर्व में कराई गई अपनी जांच रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाते हुए समुचित इलाज का अनुरोध किया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मलेरिया है। आरोप है कि वकील ने सीएचसी पट्टी में दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया तो चिकित्सक ने सीएचसी में जांच संभव ना होने की बात कहते हुए मलेरिया व टाइफाइड से संबंधित इलाज आयुर्वेद अस्पताल में होने की बात कही। वरुण ने सरकार की ओर से सभी सीएचसी में दवा व जांच की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही तो चिकित्सक ने अभद्रता करते हुए वकील के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।

छेड़खानी के आरोप में युवक को जमकर पीटा

प्रतापगढ़। युवक को किशोरी से छेड़खानी करने की बात कहकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। लाठियों से पीटने के बाद उसे सड़क पर फेंककर भाग निकले। पुलिस उसे इलाज को सीएचसी ले गई। वहां से गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया। किशोरी और परिजनो को पुलिस थाने लाई है। कुंडा के पुरानी बाजार का रहने वाला छोटू (25) ई-रिक्शा चलाता है। शनिवार को उपेहर में वह ई-रिक्शा लेकर बेटी बाईपास की ओर गया था। सड़क किनारे अमरुद के बाग में वह एक किशोरी से बात कर रहा था, तभी किशोरी के परिजनो ने छेड़खानी का शोर मचा दिया। गांव के लोगों ने छोटू को जमकर पीटा। पीटने के बाद सड़क पर छोड़कर भाग निकले। किसी ने यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची।

बाबा अमरनाथ धाम शिव मंदिर के प्रति शिवभक्तों की बढ़ी आस्था

प्रतापगढ़। मंगपुर के बाबा अमरनाथ धाम शिव मंदिर के प्रति शिवभक्तों की आस्था बढ़ती नजर आ रही है। कथा व्यास पंडित त्रिवेणी प्रसाद उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 18 सितंबर से शुरू होने वाले अधिक मास (मलमास) में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक एवं पूरे महीने जलाभिषेक द्वारा भगवान भोलानाथ की आराधना की जाएगी। इस निर्णय से मंदिर व्यवस्था संचालन समिति बहुत ही उत्साहित है। कार्यक्रम को विधिवत संपन्न कराने के लिए शिवभक्त अमनीश शर्मा अंकुर को संयोजक मनोनीत किया गया। प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक गांव में पांच इअपील बंटवाकर जागरूकता का वातावरण सृजित किया जाएगा। प्रचार व्यवस्था समिति के संयोजक प्रदीप विश्वकर्मा ने पचां , अपील अदिलत उपलब्ध कराने का भरसा दिलाया। समिति के अध्यक्ष आशुतोष मिश्र ने पूजा आरती हेतु 2100

प्रकृति के संरक्षण से विकास को नया आयाम देना सम्भव : संगम लाल गुप्ता

प्रतापगढ़। संगम वृक्ष फाउण्डेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं समाज में वनों की महत्ता को 21वीं सदी के नौनिहालों में संचारित करने के उद्देश्य से प्रकृति वन्दन महाकुम्भ का आज शुभारम्भ किया गया। एक वर्षीय इस अभियान में संगम वृक्ष फाउण्डेशन द्वारा जनपद के गांव गांव में वृक्षारोपण किया जाएगा और इस अभियान का श्री गणेश फाउण्डेशन के संरक्षक प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने अपने निज निवास पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विश्वनाथगंज विधानसभा प्रतिनिधि लोकेश गुप्ता को संगम वृक्ष फाउण्डेशन युवा एवं व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में वृक्ष भेंट कर किया। इस अवसर पर सांसद संगम लाल गुप्ता ने फाउण्डेशन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को सन्देश देते हुए कहा कि समाज में जीवनयापन के लिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक



पौधा भेंट करते संगम लाल गुप्ता

है और यदि प्रकृति की कृपा रहेगी तो समाज के हर क्षेत्र में विकास में सुगमता सुनिश्चित है। भौतिकवादी युग में यदि हम अपनी प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारा देश निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास करेगा। सांसद संगम लाल गुप्ता ने फाउण्डेशन के सभी

कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए प्रतापगढ़ के सम्मानित जनमानस से इस वार्षिक प्रकृति वन्दन महाकुम्भ में कम से कम 1 वृक्ष लगाकर उसके संरक्षण को संकल्प के साथ सहभागिता हेतु अपील किया। प्रकृति वन्दन महाकुम्भ कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए सांसद

प्रतिनिधि व फाउण्डेशन उपाध्यक्ष लोकेश गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में विगत 28 अगस्त को संगम वृक्ष फाउण्डेशन की महत्वपूर्ण वरुचुअल बैठक आयोजित की गई जिसमें फाउण्डेशन के आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई और पूर्व निर्धारित वृक्षारोपण महाकुम्भ की रूपरेखा सुनिश्चित की गई। फाउण्डेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनन्द सिंह शिल्पी ने अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक के दौरान वर्ष भर आयोजित होने वाले इस वृक्षारोपण महाकुम्भ की निर्धारित रूपरेखा को समीक्षा की जिसके अनुसार वर्ष भर जनपद में आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को पूर्व निर्धारित ग्रामसभा में आयोजित किया जाएगा फाउण्डेशन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय जनमानस की सहभागिता इस कार्य में सुनिश्चित करना संगठन का मुख्य लक्ष्य होगा।

खुद को रखो संभाल ये लोगों की राय है

प्रतापगढ़। कोरोना काल में गाइडलाइन का पालन करते हुए काव्य गोष्ठी का आयोजन शहर के सिविल लाइन में वरिष्ठ साहित्यकार पं. भानु प्रताप त्रिपाठी मराल के संरक्षण में किया गया। इसमें कवियों ने कोरोना वायरस को देखते हुए फिजिकल दूरी के साथ कविताएं सुनाईं। प्यार-मोहब्बत से लेकर कोरोना और महंगाई जैसे विविध विषयों पर रचनाएं पढ़ीं। वरिष्ठ रचनाकार डॉ. श्याम शंकर शुक्ल श्याम ने मुक्तक पढ़े, फूलों के संग काटें मिलें छंटते चलो, छोटी सी जिंदगी है प्यार बांटते चलो। कथा व्यास कवि पं. अवध नारायण शुक्ल विद्योगी की पंक्तियां देखें..खुद को रखो संभाल ये लोगों की राय है, वहके कहीं न चाल ये लोगों की राय है। गीतकार गजेन्द्र सिंह विक्रम ने गीत सुनाया..तुम्हे आजमाने को जी चाहता है, बहुत हो चुकीं अब मोहब्बत की बातें, रूठो मनाने को जी चाहता है..। गीतकार सुनील प्रभाकर ने गीतों से रस बरसाया..युल गया है फिजा में जहर देखिए..हर दवा हो गई बेअसर देखिए। कवि राज नारायण शुक्ल राजन ने गीत सुनाया..आई-आई



काव्य गोष्ठी का आयोजन भानु प्रताप त्रिपाठी मराल के संरक्षण में हुआ

कोरोना बीमारी ए भइया घर पे रहा..इहे बाटे आदेश सरकारी ए भइया घर पे रहा..। कार्यक्रम के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार भानु प्रताप त्रिपाठी मराल ने कहा कि कविता हर काल में रही है और रहेगी। प्रतापगढ़ में साहित्य सृजन की अविरल धारा बहना सुखद है। मुख्य अतिथि डा. अनिल प्रताप त्रिपाठी ने मराल जी को

कालजयी साहित्य महारथी बताया। अध्यक्ष डा. संगम लाल त्रिपाठी भंवर ने गीत सुनाए। कवि आमोद त्रिपाठी और संचालक व्यंग्यकार ओम प्रकाश पंछी, समापन अतिथि अश्विक्ता बीआर पांडेय ने सबका स्वागत किया। साहित्य सेवा के लिए कार्यक्रम में कवि मराल का सारस्वत सम्मान भी किया गया।

नदी में छलांग लगाने जा रही वृद्ध महिला को ग्रामीणों ने बचाया

प्रतापगढ़। जनपद के फतनपुर थानांतर्गत बीरापुर सई नदी पर बने पुल से अज्ञात कारणों की वजह से आत्महत्या करने जा रही बुजुर्ग महिला को उपस्थित ग्रामीणों ने रोका । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज सुबह नन्हकी देवी पत्नी हरीराम निवासी अशापुर गजरिया की बुजुर्ग महिला ने अज्ञात कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए बीरापुर सई नदी पुल से कूदने जा रही थी कि आस पास टहल रहे ग्रामीणों ने पकड़ा और जान देने से रोकते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दी ।पुलिस को आने तक महिला को ग्रामीणों के साथ घर पहुंचा दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है,मौकेपर डायल 112 और स्थानीय पुलिस पहुंच कर मामले की जांच कर रही है।



बैठे हुए शिवभक्त।

प्रतिमाह आर्थिक सहयोग देने वाले शिवभक्तों की उपलब्धि सूची प्रस्तुत की, जिस पर सभी ने संतोष प्रकट किया। वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम उपाध्याय सुमन ने कहा कि समाज के लोगों में इस मंदिर के प्रति आस्था, लगाव व आकर्षण बढ़ाने की आवश्यकता है। अध्यक्षता कर रहे पंडित त्रिवेणी प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों को इस मंदिर की

व्यवस्था में तन मन धन से भरपूर सहयोग करना चाहिए। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षक बम बहादुर सिंह, पुजारी पंडित बंदी प्रसाद मिश्र, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्र, नरेंद्र प्रताप सिंह,मनीष त्रिपाठी, राजू यादव, रमेश कुमार उपाध्याय, राजकुमार साहू,अमनीश शर्मा अंकुर, योगेंद्र यादव, अर्जुन कोरी, प्रदीप सरोज आदि शिवभक्त रहे।

चार आरोपियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न तथा छेड़छाड़ का केस

प्रतापगढ़। कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट तथा दलित युवती के साथ छेड़छाड़ व दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। सीओ जगमोहन के निर्देश पर दर्ज किये गये मुकदमें में पीड़िता शीतल का पुरवा, कर्मोरा के वंशी लाल की पत्नी कुसुम देवी ने दी गयी तहरीर में कहा है कि बीती बहस जुलाई को शाम सात बजे गांव के शिवांक सिंह, मनीष सिंह, प्रशांत सिंह तथा ब्रिजेन्द्र ने उसके घर घुसकर लाठी डंडे से मारापीटा। आरोपियों ने पीड़िता को पुत्रों को जातिभूचक गाली देते हुए मारने के साथ विरोध करने पर उसकी पुत्री के लगे आरोपियों ने छेड़छाड़ भी की। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दी किन्तु पुलिस जांच के नाम पर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। इसके बाद पीड़िता ने सीओ से मिलकर तहरीर सौंपी। सीओ के निर्देश पर शनिवार की रात पुलिस आरोपी शिवांक समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया।

सामाजिक ढांचे को मजबूत नीव दिये जाने में पं० भगवानदीन दुबे का योगदान प्रेरणास्पद

प्रतापगढ़। क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित बीडी दुबे इंटर कालेज में रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच समाजसेवी पं० भगवान दीन दुबे की एक सौ बाइसवीं जयंती संस्थापक दिवस के रूप में मनाई गई। प्रारम्भ में विद्यालय के शिक्षकों, तथा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने विद्यालय परिसर स्थिति पं० भगवानदीन दुबे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉ० सोरभ मिश्र ने कहा कि पं० भगवानदीन दुबे का जीवन सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने के साथ शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आधुनिक समय में भी प्रेरणा दायक है। बतौर मुख्य वक्ता रुरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने वर्तमान कोरोना महामारी के समय छात्र-छात्राओं को ऑन लाइन ज्ञानार्जन के लिए शिक्षकों से मेधा के क्षेत्र में मजबूत योगदान का आह्वान किया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुशील कुमार पाण्डेय व संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश



पहाड़पुर बीडी दुबे इंटर कालेज में मनाई गई एक सौ बाइसवीं जयंती।

पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य सुनील कुमार शुक्ल, डॉ० शिव शंकर त्रिपाठी, जमुना प्रसाद मिश्र, मुन्ना तिवारी, राजकुमार दुबे, कृष्णानन्द त्रिपाठी, ज्ञान प्रकाश मिश्र, आलोक शुक्ल, अमिंश मिश्र, नवीन दुबे ने भी सम्बोधित करते हुए पं० भगवानदीन दुबे के शिक्षा तथा समाज के क्षेत्र में प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व

दो पक्षों में चले लाठी डंडे, दस घुटहिल एक रेफर

प्रतापगढ़। जमीन पर मिट्टी डालने के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद के चलते मारपीट हो गयी। सांगीपुर थाना क्षेत्र के रीठी गांव में काफी समय से जमीन का विवाद चला आ रहा है। बीते शुक्रवार की सुबह लगभग नौ बजे विवादित जमीन पर गांव के धर्मद मिट्टी डाल रहे थे इस पर पड़ोसी संतराम ने उसे मिट्टी डालने से मना किया। विवाद बढ़ गया जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। मारपीट में दोनों तरफ के दस लोगो को चोट आई है ।घायलों में एक पक्ष के संतराम वर्मा, अरविंद वर्मा,सूरज वर्मा,मनीषा पुत्री तुलसी राम वर्मा,रामा देवी, पत्नी,सन्तराम आरती पुत्री सन्तराम वही दूसरे पक्ष के धर्मद वर्मा, दसरथ व रेखा देवी को चोट आई है ।घायलों को पुलिस उपचार के लिए सी,एच, सी,सांगीपुर ले गयी। वहां सन्तराम की गम्भीर हालत देख डाक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। रविवार को दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को घटना के बावत तहरीर दी गयी। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।



रक्तदान संस्थान द्वारा एक यूनिट रक्त दान करते।

रक्तदान संस्थान जनहित को लिए है समर्पित : निर्मल पाण्डेय

प्रतापगढ़। आज रक्तदान संस्थान प्रतापगढ़ के अध्यक्ष निर्मल पाण्डेय के निर्देशन में संस्था के प्रमुख सहयोगी ठाकुर गणेश प्रताप सिंह(व्यवस्थापक-जय राजकुमारी बाबा पारस पाल महाविद्यालय, एवं उमा कॉलेज आफ फार्मेसी लीलापुर प्रतापगढ़) के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक यूनिट का रक्तदान करवाया गया। गणेश प्रताप सिंह का जन्मदिन संस्थाध्यक्ष व समस्त संस्था के पदाधिकारियों द्वारा केक काटकर भूमधाम

से मनाया गया। आज संस्था के लिए रक्तदान करने वाले रक्तदाता सिराज अहमद निवासी आजाद नगर की उम्र लगभग 20 वर्ष है। सिराज के द्वारा संस्था के लिए स्वीच्छिक रक्तदान किया गया। आज के प्रमुख सहयोगियों में ठाकुर कुंदन सिंह (अभी ग्राम प्रधान बासुपुर कटैया सड़वा चंद्रिका प्रतापगढ़) आशीष सिंह, शायर अर्सलान प्रतापगढ़ी ठाकुर गणेश प्रताप सिंह, संस्था अध्यक्ष निर्मल पाण्डेय मोहम्मद अयान आदि मौजूद रहे।

कोरोना काल में न ताजिया न अखाड़े, और न जुलूस

ताजियादारो के चेहरे पर छाई मायूसी

प्रतापगढ़। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार दूसरे त्योहारों की तरह मोहर्रम भी सूना ही बीत रहा है। न खुबसूरत ताजिया सजाए गए हैं और न ही अखाड़ों की फन ए सिपहगीरी देखने को मिल रही है। जहां रखहा, ईसनपुर कन्धई की सड़कों पर हजारों की भीड़ वाले जुलूस नदारद है। सरकार ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है इसके तहत पाबंदियों के साथ मोहर्रम का महीना बीत रहा है कन्धई बाजार जहां ताजिया और मीरानपुर से ताजिया उठ कर कन्धई बाजार में मिलन होता था। जहां देर शाम तक चलने वाला जुलूस इस बार नहीं निकाला गया सभी ताजियादारो अपने घर पर रहकर मोहर्रम मना रहे हैं ताजियादारो के चेहरे पर मायूसी छाई है।

लूट व पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल

प्रतापगढ़। कंधई थाना क्षेत्र के शीतलागंज बाजार में देशी शराब की दुकान से टेकेदार के भाई शिवशंकर और सेल्समैन राजबहादुर से बीते 22 अगस्त को रात सुब नौ बजे 22400 रुपए, दो मोबाइल और गहने की लूट और खिरीबीर पुल के पास पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच में प्रकाश में आए तीसरे आरोपित रणजीत सिंह उर्फ मेजर निवासी रतनमई थाना कंधई को शरण देने के आरोप में रतनमई गांव निवासी मनीष सिंह को कंधई पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर उसका चालान कर कोर्ट में पेश किया है। प्रभारी एसओ कंधई हरिभजन गौतम ने बताया कि शीतलागंज में शराब की दुकान पर हुई लूट और खिरीबीर पुल के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने के तीसरे



लूट का आरोपी को गिरफ्तार करती पुलिस।

आरोपित रणजीत सिंह को शरण देने के आरोप में रतनमई गांव निवासी मनीष सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है प्रकाश में आए दूसरे आरोपित शुभम

और रणजीत सिंह की तलाश की जा रही है।व्शोपुर गांव निवासी उमैद अली को खिरीबीर पुल के पास से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

मोबाइल छीन कर भाग रहे एक बदमाश गिरफ्तार

प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन में जनपद के थाना कुण्डा से उ०नि० श्री रमेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र कुण्डा के रैयापुर के पास से मोबाइल की छिन्ती कर भाग रहे। दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त विमलेश सोनी पुत्र रामबाबू सोनी निवासी महुआतर थाना कुण्डा को गिरफ्तार किया गया। जबकि दूसरा अभियुक्त मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन व चैरी की एक अदद सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकिल बरामद किया गया। चोरी की मोटर साइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकिल मैने अपने साथी इन्द्रजित यादव जो मौके से फरार हो गया है। के साथ मिलकर सच्ची मारपीट करवा कुण्डा से पिछले महीने चोरी की थी, जिस



शांति चोर पुलिस की गिरफ्त में।

हम लोग इस्तेमाल कर रहे है यदि कोई ग्राहक मिलता तो बंच देते और पैसा हम लोग आपस में बांट लेते। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में

प्रतापगढ़। मोहर्रम पर ताजिया या जुलूस न निकल पाए इसके सिराज रविवार सुबह से सभी ताजियादारो के घर फोर्स तैनात कर दी गई। ताजियादारो से जुड़े कई लोगों के मोबाइल फोन नंबर को सर्विलांस पर लगाकर पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में जुट गई।कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन व कोर्ट से सार्वजनिक स्थल पर ताजिया व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। किन्तु पुलिस को भयक लगी कि कुछ लोग हर हाल में ताजिया निकालने के लिए ताजियादारो को उकसा रहे हैं। इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और ताजियादारो सहित 101 लोगों को नोटिस दे दी। न मानने पर रासुका तक लगाने में सफल नहीं दी। इसके बाद भी सुबुगहाट होती रही तो रविवार सुबह आठ बजे सभी ताजियादारो के घर पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए।

ताजियादारों के घर सुबह से तैनात कर दी गई फोर्स

प्रतापगढ़। मोहर्रम पर ताजिया या जुलूस न निकल पाए इसके सिराज रविवार सुबह से सभी ताजियादारो के घर फोर्स तैनात कर दी गई। ताजियादारो से जुड़े कई लोगों के मोबाइल फोन नंबर को सर्विलांस पर लगाकर पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में जुट गई।कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन व कोर्ट से सार्वजनिक स्थल पर ताजिया व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। किन्तु पुलिस को भयक लगी कि कुछ लोग हर हाल में ताजिया निकालने के लिए ताजियादारो को उकसा रहे हैं। इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और ताजियादारो सहित 101 लोगों को नोटिस दे दी। न मानने पर रासुका तक लगाने में सफल नहीं दी। इसके बाद भी सुबुगहाट होती रही तो रविवार सुबह आठ बजे सभी ताजियादारो के घर पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए गए।

ब्रह्मदेव जागरण मंच को की एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता



आर्थिक सहायता देते।

प्रतापगढ़। कानपुर के श्याम नगर स्थित केडीए कॉलोनी निवासी रेखा शुक्ला की खराब आर्थिक स्थिति व जीवन यापन को दृष्टिगत रखते हुए ब्रह्मदेव जागरण मंच ने सहायता करने का बीड़ा उठाया था। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से संगठन के माध्यम से इस परिवार की सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी , कर्मचारी

,अधिवक्ता , पत्रकार व प्रबुद्ध लोगों ने बड़ चढ़कर सहयोग करते हुए 7100000 की आर्थिक सहायता इस परिवार के लिए एकत्रित की। रविवार को ब्रह्मदेव जागरण मंच के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शिवांक पाण्डेय ने 90 हजार की धनराशि चेक के माध्यम व 10000 की धनराशि नगद सौपने उनके घर पहुंचे।

प्रतापगढ़। कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट तथा दलित युवती के साथ छेड़छाड़ व दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। सीओ जगमोहन के निर्देश पर दर्ज किये गये मुकदमें में पीड़िता शीतल का पुरवा, कर्मोरा के वंशी लाल की पत्नी कुसुम देवी ने दी गयी तहरीर में कहा है कि बीती बहस जुलाई को शाम सात बजे गांव के शिवांक सिंह, मनीष सिंह, प्रशांत सिंह तथा ब्रिजेन्द्र ने उसके घर घुसकर लाठी डंडे से मारापीटा। आरोपियों ने पीड़िता को पुत्रों को जातिभूचक गाली देते हुए मारने के साथ विरोध करने पर उसकी पुत्री के लगे आरोपियों ने छेड़छाड़ भी की। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दी किन्तु पुलिस जांच के नाम पर मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। इसके बाद पीड़िता ने सीओ से मिलकर तहरीर सौंपी। सीओ के निर्देश पर शनिवार की रात पुलिस आरोपी शिवांक समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया।

प्रतापगढ़। क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित बीडी दुबे इंटर कालेज में रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच समाजसेवी पं० भगवान दीन दुबे की एक सौ बाइसवीं जयंती संस्थापक दिवस के रूप में मनाई गई। प्रारम्भ में विद्यालय के शिक्षकों, तथा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने विद्यालय परिसर स्थिति पं० भगवानदीन दुबे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉ० सोरभ मिश्र ने कहा कि पं० भगवानदीन दुबे का जीवन सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने के साथ शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आधुनिक समय में भी प्रेरणा दायक है। बतौर मुख्य वक्ता रुरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने वर्तमान कोरोना महामारी के समय छात्र-छात्राओं को ऑन लाइन ज्ञानार्जन के लिए शिक्षकों से मेधा के क्षेत्र में मजबूत योगदान का आह्वान किया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुशील कुमार पाण्डेय व संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश

पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य सुनील कुमार शुक्ल, डॉ० शिव शंकर त्रिपाठी, जमुना प्रसाद मिश्र, मुन्ना तिवारी, राजकुमार दुबे, कृष्णानन्द त्रिपाठी, ज्ञान प्रकाश मिश्र, आलोक शुक्ल, अमिंश मिश्र, नवीन दुबे ने भी सम्बोधित करते हुए पं० भगवानदीन दुबे के शिक्षा तथा समाज के क्षेत्र में प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व

प्रधानाचार्य हरिवंश त्रिपाठी, गोपाल शुक्ल, माता प्रसाद शुक्ल, शशांक शुक्ल, प्रमोद तिवारी, सर्वजित पुता, संजय कुमार मिश्र, नरेन्द्र तिवारी, राजेंद्र मिश्र आदि रहे। इसके पूर्व सीओ जगमोहन यादव ने विद्यालय पहुंचकर अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल बाल दत्त मिश्र की ओर से भी भगवानदीन दुबे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

छेड़खानी का विरोध करने पर किशोरी समेत पांच से मारपीट

प्रतापगढ़। गोशाला में मवेशियों को चारा देने गई किशोरी ने छेड़खानी कर रहे युवकों का विरोध किया। शोर मचाने पर किशोरी और बचाने दौड़े मोहल्ले के चार लोगों को लाठी डंडे से पीटा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कुंडा के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी। उसकी बेटी (16) शनिवार सुबह गोशाला में मवेशियों को चारा देने गई थी। तभी गांव के ही शुभम, धीरज, कमलेश पहुंचे और बेटी का मुंह दबाकर छेड़खानी, अश्लील हरकत करने लगे। बेटी ने विरोध किया तो उसे पीटा, शोर सुनकर आस पास के लोग दौड़े तो उनको भी लाठी डंडे से पीटा और तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। युवकों के हमले से बीच बचाव करने एग शौहत सरोज (35), रामराज यादव (36), रवि कुमार (24), सुधीर कुमार (25) को चोट आई। परिजन घायलों को सीएचसी ले

गए। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शुभम, धीरज, कमलेश के खिलाफ पारको एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। घटना के बाद से आरोपित फरार हैं।

दिनेश कुमार मिश्र बने राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के जिलाध्यक्ष

प्रतापगढ़। सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिनेश कुमार मिश्र को जनपद प्रतापगढ़ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बताते हैं कि दिनेश मिश्र इसके पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष रहे।उनके कार्यकुशलता चलते व सामाजिक योगदान के संघर्ष उन्हें प्रोन्नति दी गई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा की ब्राह्मण समाज पर रहे अत्याचार पर वह प्रभावशाली कदम उठाएंगे। उन्होंने कहाकि ब्राह्मणों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। केवल नरों से नहीं फौलादी नेक हस्तों के साथ ऊज्वलान कमेटी का गठनकर समाज को मजबूती प्रदान की जाएगी।

खिलाड़ियों को सता रहा है अकेलापन

रैना ने टीम प्रबंधन को कहा था कि उनके लिए जैव सुरक्षा वातावरण में रहना मुश्किल हो रहा

दुबई। आईपीएल के 13वें सत्र के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंच चुकीं आठों टीमों के खिलाड़ियों को अकेलापन सता रहा है। आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना के अचानक दुबई से स्वदेश लौटने के पीछे यह बताया जा रहा है कि जैव सुरक्षा वातावरण में अकेले रहने की चिंता, टीम के दो खिलाड़ियों सहित 13 सदस्यों के कोरोना से संक्रमित हो जाने और स्वदेश में एक निजी त्रासदी के चलते रैना वापस भारत लौट गए। रैना टीम के दुबई पहुंचने के नौ दिन बाद ही स्वदेश लौट गए हैं। टूर्नामेंट को 19 सितम्बर से 10 नवम्बर तक होना है लेकिन टूर्नामेंट का कार्यक्रम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। रैना का युवा परिवार है और उनके दो



बच्चे हैं। समझा जाता है कि उन्होंने

टीम प्रबंधन- सीईओ काशी विश्वनाथन, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खिताब जीतने में मदद करेंगे। लेकिन

और कोच स्टीफन फ्लेमिंग को बताया है कि उनके लिए होटल के कमरे में अकेले रहना मुश्किल हो रहा है। रैना ही नहीं बल्कि चेन्नई टीम के अन्य सदस्यों को भी अपने होटल को लेकर परेशानी हो रही है जो शहर के एक वीरान इलाके में है। रैना के फैसले ने टीम प्रबंधन को चौंकाया है क्योंकि रैना ने हाल ही में कहा था कि वह टीम को चौथा

अब उन्होंने टीम प्रबंधन को कहा था कि उनके लिए जैव सुरक्षा वातावरण में रहना मुश्किल हो रहा है। रैना ने हालांकि दुबई जाने से पहले 16 से 20 अगस्त तक चेन्नई ने टीम का छह दिवसीय कैंप जैव सुरक्षा वातावरण में गुजारा था। आईपीएल के कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सभी टीम के खिलाड़ियों को यूएई पहुंचने के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर ही कोरोना वायरस की जांच करानी होती है। इसके बाद खिलाड़ियों को होटल में छह-दिवस की अनिवार्य क्वारंटीन अवधि के दौरान पहले, तीसरे और पांचवें दिन भी कोरोना वायरस की जांच करानी होती है। इन तीनों जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की अनुमति दी जाती है। चेन्नई टीम ने अपने अभ्यास सत्र को

एक सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया है। आईपीएल की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन्हें कम से कम दो सप्ताह तक क्वारंटीन में रहना होगा और इसके बाद उनके दो टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए तभी वे टीम से जुड़ पाएंगे। इन सदस्यों को शेष ग्रुप से अलग कर आइसोलेशन में रखा जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि इनके संपर्क में कौन-कौन लोग आये थे। अधिकतर खिलाड़ियों ने मार्च से कोई क्रिकेट नहीं खेला है और उन्हें अपनी क्षमता पर संदेह हो रहा है। किस इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने हाल में कहा था कि उन्हें खुद पर संदेह होता है कि क्या वह गेंद की लाइन-लेंथ को पढ़ पाएंगे, कहीं वह धीमे हो गए तो और क्या वह



पोर्टलैंड में एमएलएस फुटबॉल मैच में खेलते हुए खिलाड़ी।

जोकोविच ने जीता वेस्टर्न एंड सर्दर ओपन, करियर का 80वां खिताब

17 बार के ग्रैंड स्लेम विजेता ने राओनिक की शक्तिशाली सर्विस पर काबू

न्युयार्क। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2020 में अपना अपराजेय क्रम बरकरार रखते हुए कनाडा के मिलोस राओनिक को शनिवार को तीन सेटों में 1-6, 6-3, 6-4 से हराकर वेस्टर्न एंड सर्दर ओपन टेनिस खिताब जीत लिया। जोकोविच ने पहला सेट गंवाने की खराब शुरुआत से उबरते हुए अगले दो सेट आसानी से जीतकर खिताब अपने नाम किया और सोमवार से शुरू होने वाले वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन के लिए अपने मजबूत दावेदारी का संकेत दे दिया। 17 बार के ग्रैंड स्लेम विजेता ने राओनिक की शक्तिशाली सर्विस पर काबू पाते हुए कोरोना से प्रभावित 2020 में अपने अपराजेय क्रम को 23-0 पहुंचा दिया। उनका यह 80वां करियर खिताब है और इसके साथ ही उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल के 35 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पूरे टूर्नामेंट



में अपनी गर्दन की चोट से परेशान रहे शानदार वापसी करते हुए शक्तिशाली फोरहैंड शॉट्स खेलते हुए राओनिक की सर्विस पर काबू पा लिया। उन्होंने निर्णायक सेट में लगातार चार गेम जीते। जोकोविच के दमदार प्रदर्शन का

राओनिक के पास अब कोई जवाब नहीं था। जोकोविच ने इस जीत से राओनिक के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 11-0 पहुंचा दिया है। जोकोविच का यूएस ओपन के पहले राउंड में बोस्निया के दामिर जम्हर से मुकाबला होगा।

पहला ट्रेनिंग सत्र उम्मीद से बेहतर रहा: विराट

दुबई। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि टीम का पहला नेट सत्र उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। बंगलुरु टीम दुबई में आईसीसी अकादमी में अभ्यास कर रही है। बंगलुरु और टीम इंडिया के कप्तान विराट लगभग छह महीनों में पहली बार नेट में उतरे और अभ्यास सत्र से काफी संतुष्ट नजर आये। विराट ने कप्तान को वेबसाइट पर कहा, "इमानदारी से कहूँ तो सत्र उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। मैं कुछ डरा हुआ था क्योंकि मैंने पांच महीनों से बल्ल नहीं उठाया था लेकिन नेट में मेरा बल्लेबाजी अभ्यास बेहतर रहा। मैंने लॉकडाउन में कुछ ट्रेनिंग की थी और अब मैं खुद को फिट महसूस



कर रहा हूँ। कप्तान ने शारीरिक फिटनेस को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, "यदि आपका शरीर हल्का महसूस कर रहा है तो आप अभ्यास में खुद को बेहतर महसूस करेंगे। मुझे लग रहा है कि मुझे गेंद खेलने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। यह काफी सकारात्मक है। यदि आपका शरीर बोझिल रहता है तो आपका मूवमेंट प्रभावित होता है और इसका सीधा असर दिमाग पर जाता है।

आईपीएल-13 कप्तान के तौर पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा: अय्यर

दुबई। दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का मानना है कि आईपीएल का यह सत्र कप्तान के तौर पर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अय्यर ने 2018 के सत्र के मध्य में दिल्ली टीम की कप्तानी संभाली थी जब गौतम गंभीर ने टीम की लगातार पराजय के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के कप्तान ने आईपीएल वेबसाइट से कहा, "यह सत्र पिछले सत्र के मुकाबले काफी अलग होगा लेकिन चुनौतियां हमेशा मुझे रोमांचित कर चुकी हैं। एक कप्तान के तौर पर यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार होगा क्योंकि इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। हमारे लिए यह जरूरी होगा कि एक बार में हम एक ही मैच को देखें। हमें कोरोना के समय में क्या करें और क्या न करें के बारे में सब कुछ बताया गया है। यह सबके लिए महत्वपूर्ण है कि जैव सुरक्षा वातावरण के प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें।" अय्यर ने पिछले आईपीएल सत्र में 16 पारियों में 463 रन बनाये थे और दिल्ली टीम में शिखर धवन और ऋषभ पंत के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे थे। दिल्ली की टीम 14 मैचों में नौ मैच जीतकर तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी और प्लेऑफ में पहुंची थी।

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे 120कमें दी पछुनी, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

नई दिल्ली, जेएनएन। इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को 5 विकेट से हरा दिया और तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए पहली पारी में 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 196 रन का लक्ष्य मिला था जिसे इस टीम ने 5 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

ओसाका फाइनल से हटी, अजारेंका ने जीता खिताब

न्युयार्क। जापान की नाओमी ओसाका के बायीं हैमरिस्टिंग चोट के कारण फाइनल से हट जाने से बेलायत की विकटोरिया अजारेंका ने बिना कोई पसीना बहाये वेस्टर्न एंड सर्दर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब शनिवार को जीत लिया। अजारेंका का यह 21वां डब्ल्यूटीए टूर खिताब है। ओसाका ने नसलभेद के विरोध में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से हटने का फैसला किया था लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदला और सेमीफाइनल में उतरकर जीत हासिल की। उन्होंने सेमीफाइनल में बेलजियम की एलिंस मर्टेंस को हराया था लेकिन ओसाका को फाइनल में बायीं हैमरिस्टिंग चोट के कारण हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जापानी खिलाड़ी ने फाइनल से हटने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें कल सेमीफाइनल में दूसरे सेट



के टाइम्ब्रेक में बायीं हैमरिस्टिंग में खिचाव आ गया था और रात भर में यह चोट ठीक नहीं हो पायी। अजारेंका ने भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओसाका को चोट के कारण फाइनल से हटना पड़ा।

राहुल चाहर ने अपने भाई दीपक के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की

दुबई। मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर राहुल चाहर ने अपने भाई और चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के सदस्य दीपक चाहर के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चेन्नई टीम के दो खिलाड़ी सहित 13 सदस्य कोरोना से संक्रमित हुआ है जिसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने की है। इन दो खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज दीपक चाहर शामिल हैं। राहुल ने ट्विटर पर दीपक को जल्द स्वस्थ होने और मैदान पर लौटने के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। राहुल अपनी टीम के साथ अबु धाबी में हैं। राहुल ने कहा, "मजबूर रहो मेरे भाई...मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं।"

रैना की कमी खलेगी: वाटसन

दुबई। चेन्नई सुपरकिंग्स के स्टार आलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन ने कहा है कि इस बार आईपीएल में सुरेश रैना की कमी काफी खलेगी। 33 वर्षीय रैना निजी कारणों से अचानक दुबई से भारत लौट गए हैं। वाटसन ने इंस्टाग्राम पर कहा कि चेन्नई टीम के स्टार रैना की कमी केवल उनके साथी खिलाड़ियों को नहीं बल्कि आईपीएल को भी खलेगी।

वाटसन ने कहा, "जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह दुखद खबर मिली कि सुरेश रैना निजी कारणों से स्वदेश लौट रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सुरेश, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा। चेन्नई टीम में हम सबको आपकी कमी खलेगी। उन्होंने कहा, "आप चेन्नई टीम के स्टार हो, आप टीम का दिल हो और आपकी कमी आईपीएल टूर्नामेंट को भी खलेगी। लेकिन अपना ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। उल्लेखनीय है कि रैना निजी कारणों से दुबई से स्वदेश लौट



आये हैं और वह इस सत्र में आईपीएल में नहीं खेलेंगे। चेन्नई टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने अपनी टीम के ट्विटर पर कहा था, "सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौट गए हैं और वह आईपीएल सत्र के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। चेन्नई टीम इस समय अलग है और उनके पूरे परिवार का पूरा समर्थन करती है। समझा जाता है कि रैना पंजाब में अपने फूफा की मौत के कारण आईपीएल छोड़कर भारत लौटे हैं। उल्लेखनीय है कि 19-20 अगस्त की रात को पंजाब के पटानकोट के

थरियाल गांव में जिस सरकारी ठेकेदार की हत्या कर घर में लूटपाट की गई थी, वह क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार (58) थे। रैना को इसी पारिवारिक जरूरत के कारण स्वदेश लौटना पड़ा। 33 वर्षीय रैना एक भारत लौटना चेन्नई टीम के लिए एक और गहरा झटका है जिसके दो भारतीय खिलाड़ियों सहित 13 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चेन्नई टीम ने अपना अभ्यास सत्र एक सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया है। चेन्नई का रत को पंजाब के पटानकोट के

बार्सीलोना के सत्र से पहले के मेडिकल टेस्ट में नहीं आये मैसी

बार्सीलोना। अपने फुटबॉल क्लब बार्सीलोना को छोड़ने की घोषणा कर चुके अर्जेन्टीना के दिग्गज फुटबॉलर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरों में से एक लियोनल मैसी रिविवार को बार्सीलोना के सत्र से पहले के मेडिकल टेस्ट में शामिल नहीं हुए। टीम के कई खिलाड़ी रिविवार की सुबह टेस्ट के लिए पहुंचे लेकिन मैसी नहीं आये। उन्हें स्थानीय समय के अनुसार सुबह सवा बजे मैदान पर होना चाहिए था। खिलाड़ियों को टेस्ट के लिए अलग-अलग समय दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों में शनिवार को ही कह दिया गया था कि मैसी न तो प्री सत्र मेडिकल में आएंगे और न ही सोमवार को ट्रेनिंग में शामिल होंगे। 33 वर्षीय मैसी ने मंगलवार को बार्सीलोना को बताया था कि वह अपने अनुबंध में 70 करोड़ यूरो (826 करोड़ डॉलर) का रिलीज नियम होने के बावजूद क्लब छोड़ना चाहते हैं। अर्जेन्टीना टीवी चैनल टीवीईसी स्पोर्ट्स के मुताबिक मैसी ने अपने अनुबंध समाप्ति को लेकर क्लब को पंजीकृत फेक्स भेजा था जिसमें एक नियम को रेखांकित किया गया था जो उन्हें इस सत्र के अंत में अपने अनुबंध को रद्द करने की एकातरफा अनुमति देता है।



मैनचेस्टर में महिला फुटबॉल मैच में खेलती हुई मिली ब्राइट व अन्य खिलाड़ी।

विराट से मुकाबले का इंतजार कर रहे एंडरसन

लंदन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने कहा है कि वह अगले साल के भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंडरसन का कहना है कि उन्हें इस दौरे में विश्व के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से मुकाबले का अवसर मिलेगा। एंडरसन के अनुसार उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना पसंद है। एंडरसन ने हाल ही में अपने 600 विकेट पूरे किये हैं और अब उनकी नजरें इस आंकड़े को 700 तक ले जाना है। एंडरसन और कोहली के बीच पहले भी कई बार मुकाबला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ने कहा, विराट जैसे स्तर के बल्लेबाज को गेंदबाजी करना हमेशा कठिन चुनौती की तरह होता है। यह काफी कड़ा मुकाबला होगा पर मुझे इसमें भी आनंद ही आता है क्योंकि आप हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आउट करना चाहते हो। इससे पहले साल 2014 में भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे में एंडरसन भारी पड़े थे और उन्होंने चार बार विराट को आउट किया था। उसे दौरे में विराट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और वह अपने 10 पारियों में केवल 134 रन ही बना पाये थे लेकिन इसके बाद साल 2018 में विराट ने अपने इंग्लैंड दौरे में जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए सबसे ज्यादा 593 रन बनाये थे। एंडरसन ने कहा, ह्यूब2014 में मुझे सफलता मिली थी।





क्रियायोग सन्देश

प्रयागराज सोमवार, 31 अगस्त, 2020

क्रियायोग : शरीर व मन के बीच दूरी शून्य करने का विज्ञान है, इस स्थिति में हम योग की अवस्था की अनुभूति करते हैं : स्वामी श्री योगी सत्यम्

झूँसी, प्रयागराज। क्रियायोग शरीर व मन के बीच दूरी शून्य करने का अध्यात्मिक विज्ञान है। शरीर व मन के बीच दूरी शून्य होने पर शरीर व मन दोनों दो अलग-अलग तत्वों के रूप में नहीं अनुभव होते हैं बल्कि दोनों एकतत्व हैं, का अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त होता है। उसी एक तत्व को सत्, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परमतत्व, परमब्रह्म, परमात्मा तत्व आदि अनेक रूपों में वर्णित किया गया है। शरीर व मन के बीच दूरी की शून्यता का प्रकट होना योग की अवस्था है। योग अवस्था को अद्वैत अवस्था कहा गया है। जिसके प्रकट होने पर असत्, माया, अविद्या, अज्ञान का लोप हो जाता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम चैतन्य परमात्मा का प्रकाश है। ऐसी अवस्था में साधक को शाश्वत सुख जिसे परमआनंद (नित्यनवीन आनंद) कहा गया है, की प्राप्ति होती है।

शरीर व मन के बीच दूरी की शून्यता प्रकट होने पर माया का लोप हो जाता है। माया को अविद्या, अज्ञान कहा गया है। माया के प्रभाव से असत्, सत्य के रूप में, ज्ञान, ज्ञान के रूप में व अविद्या, विद्या के रूप में अनुभव होता है। माया के प्रभाव से जो अविभाजित है वह विभाजित दिखाई पड़ता है। शरीर व मन के बीच दूरी शून्य होने का अर्थ है माया का शून्य होना व सत्य का प्रकट होना।

क्रियायोग साधना के द्वारा शरीर व मन के बीच दूरी की शून्यता स्थापित होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़, पौधे, जीव जंतु, मानव देवीदेवता आदि समस्त रचनाएं अलग-अलग नहीं हैं बल्कि एक ही तत्व



का अनेक रूपों में प्रकटीकरण है। जिस प्रकार समुद्र अनेक लहरों के रूप में प्रकट होता है, लहर का स्वरूप चाहे छोटा होया बड़ा, भारी हो या हल्का वह समुद्र का ही व्यक्त रूप है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात् दृश्य व अदृश्य जगत सर्वव्यापी परमब्रह्म का व्यक्त रूप है।

KRIYAYOGA IS THE SCIENCE TO REDUCE DISTANCE BETWEEN BODY AND MIND TO EXPERIENCE STATE OF YOGA : SWAMI SHREE YOGI SATYAM




FILE PHOTO



FILE PHOTO

Kriyayoga Science is the spiritual science to reduce distance between body and mind. In other words, we realize that both Body and Mind are made up of One Substance. This Substance is referred to by many different terms such as Truth, Eternal Substance, Omnipresent, Omnipotent and Joy known as Paramatma... The state of oneness between Body and Mind is known as Yoga.

The state of Yoga is also known as the state of Singularity; where non-reality - Illusion (Maya), Ignorance (Avidya) - disappear. One perceives the whole Cosmos in the form of one Consciousness known as God. In this state, a practitioner perceives Eternal Joy (Bliss). When the distance between body and mind disappears, the effect of Maya disappears. Due to



the effect of Maya diminishes, and Truth is revealed. All the seemingly different manifestations of creation: Sky, Air, Fire, Water, Earth, Plants, Animals, Human Beings and Angels are all One Substance. Just as each wave is part of the ocean and cannot exist without the ocean; in the same way, the whole Cosmos - visible and invisible creation - is manifestation of The Omnipresent God (Eternal Substance).